



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 20—मार्च 26, 2010 (फाल्गुन 29, 1931)

No. 12]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 20—MARCH 26, 2010 (PHALGUNA 29, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 2010

वित्त प्रभाग

सं. 136, दिनांक 01 मार्च 2010—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग)
के श्री ओ पी चौहान, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव को दिनांक 21 नवम्बर
2009 से वेतन बैंड-4 (37,400-67,000/ + 8,700/- रुपये की ग्रेड-पे)
में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में प्रधान स्टाफ अधिकारी के रूप
में नियुक्त करते हैं।

आर सी मीना

सहायक वित्तीय सलाहकार (स्था.)

सेना शाखा

सं. 137, दिनांक 01 मार्च 2010—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी
को सहर्ष नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान करते हैं:—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

(एस एस 37555 वाई) पूर्व मेजर जगमीत सिंह अब (टीए-42692)
ले. जगमीत सिंह को प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 में निहित प्रावधान के
अन्तर्गत दिनांक 16 अगस्त 2007 से लैफ्टीनेन्ट के पद पर इन्फैन्ट्री (टीए)

में कमीशन प्रदान किया जाता है। नियमित सेना की 08 साल और 30 दिन
(दिनांक 05 सितम्बर 1998 से 05 अक्टूबर 2006) की सेवा के लिए उन्हें
प्रादेशिक सेना में 16 जुलाई 1999 से लैफ्टीनेन्ट के पद पर वरीयता प्रदान
की जाती है। पिछली तिथि से वरीयता के कारण उन्हें प्रादेशिक सेना अधिनियम
1948 के पैरा 25 (ए) तथा 38(ए) में निहित प्रावधान (संशोधित संस्करण
1976) ए वी एस सी समिति प्रतिवेदन के अनुसार भारत सरकार, रक्षा
मंत्रालय के पत्र सं. 18(1)2006/डी(जी एस-1) दिनांक 18 दिसम्बर
2006 द्वारा यथा संशोधित, के अन्तर्गत वेतन वृद्धि एवम् पदोन्नति के लिए
सैद्धान्तिक वरीयता के साथ दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से कैप्टन और
दिनांक 16 जुलाई 2007 से मेजर के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

जय राज

अवर सचिव

सं. 138, दिनांक 01 मार्च 2010—अध्यक्ष महोदय ने खुश होकर नंबर
14312364 श्री एम एल करकवार, सीजीओ की नियुक्ति/पदोन्नति 01 मई
से की।

ए वी बागुर

अवर सचिव

थल सेना शाखा

इलैक्ट्रानिकी और यांत्रिक अभियंता कोर

सं. 139, दिनांक 01 मार्च 2010--राष्ट्रपति महोदय, श्री रितेश सरोधिया को दिनांक 27 जुलाई 2009 (पूर्वाह्न) से ईएमई कोर रक्षा मंत्रालय में सहायक कार्यकारी अभियंता के पद पर नियुक्त करते हैं।

वह दो वर्ष की परख अवधि पर रहेंगे।

एन के कश्मीरा
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 140, दिनांक 02 मार्च 2010 राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित सेना दन्त कोर अधिकारियों को एक वर्ष की परखावधि सफलता पूर्वक समाप्त होने पर सेना अनुदेश 15/79 के अन्तर्गत अल्पकालीन कमीशन में पक्का करते हैं:-

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
अल्पकालीन कमीशन

स्थाईकरण

कैप्टन भारत भान (डीएस-12259एच), 30 दिसम्बर 2007
कैप्टन संदीप मेहता (डीएस-12263एल), 31 दिसम्बर 2007
कैप्टन परमिन्द्र कौर (डीएस-12269एम), 04 जनवरी 2008
कैप्टन सलोमी थामस (डीएस-12281एन), 14 जनवरी 2008
कैप्टन मितिका सिंह फुल (डीएस-12294एल), 20 जनवरी 2008
कैप्टन सुप्रीता चन्डेल (डीएस-12301डब्ल्यू), 10 मार्च 2008

डी के तनेजा
मेजर जनरल एडीजीडीएस

थल सेना विभाग

सं. 141, दिनांक 02 मार्च 2010--थल सेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:-

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
स्थाई कमीशन
एक्टिंग पेड सर्जन कैप्टन से सबरैटिव
सर्जन कैप्टन के पद पर

वी एस परमार (डीआर-10413एक्स) (79036ए), 14 फरवरी 2009

डी के तनेजा
मेजर जनरल एडीजीडीएस

थल सेना शाखा

सं. 142, दिनांक 02 मार्च 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं:-

नियमित सेना
स्थायी कमीशन
सेना चिकित्सा कोर

ले कर्नल से कर्नल (टीएस) के पद पर

रैंक, नाम, एमआर सं. और तारीख

ले कर्नल आर के भाटिया (एमआर-06185एच), 06 मार्च 2009
ले कर्नल एस एस खुशवाहा (एमआर-05970एम), 27 मई 2009
ले कर्नल आशीष सक्सेना (एमआर-05027एफ), 01 जून 2009
ले कर्नल ए मल्होत्रा (एमआर-05028के), 01 जून 2009
ले कर्नल मिसेज के विश्वानाथन (एमआर-06482डब्ल्यू), 04 जून 2009

ले कर्नल एस मिश्रा (एमआर-06397एन), 18 जून 2009

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (टीएस) के पद पर

विंग कमांडर आदित्य भार्गवा (एमआर-05295एल), 19 दिसम्बर 2007
विंग कमांडर यू कापाली (एमआर-05969एक्स), 17 अप्रैल 2009
विंग कमांडर हर्ष वर्धन (एमआर-05018ए), 01 जून 2009

सर्ज कमांडर से सर्ज कैप्टन (टीएस) के पद पर

सर्ज कमांडर एम सी नागराज 75335 (एमआर-05071एल), 12 सितम्बर 2008

सर्ज कमांडर वी महेन्द्रा 75303 (एमआर-04791ए), 06 जून 2009

सर्ज कमांडर एस सी पात्रा (एमआर-04339एल), 16 दिसम्बर 2004

सर्ज कमांडर रेबू कोशी (एमआर-05612एफ), 06 दिसम्बर 2007

सर्ज कमांडर एच एस नागर (एमआर-05585एच), 28 मार्च 2009

यश पांडे
ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

स्थायी आर्मी

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

सं. 143, दिनांक 03 मार्च 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एमएनएस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं:-

ले कर्नल से ले कर्नल (सेलेक्ट)

पद और नाम, व्यक्तिगत सं. और पदोन्नति की तारीख

ले कर्नल रोजली मैथ्यू (एनआर-16833डब्ल्यू), 20 दिसम्बर 2004

ले. कर्नल वल्सला (एनआर-17121एक्स), 04 जून 2007

ले. कर्नल मोली पी (एनआर-17359एक्स), 03 जुलाई 2008

टी पदमिनी
मेजर जनरल अतिरिक्त
महानिदेशक एमएनएस

सेना शाखा

सं. 144, दिनांक 03 मार्च 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित सेना चिकित्सा कोर अधिकारी की सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना
स्थायी कमीशन
मेजर के पद पर

अमित किशोर (एमएस-14738एच) (एमआर-08891एच), एएमसी, 30 दिसम्बर 2008

गिरिजा नंदन त्रिपाठी (एमएस-15014एक्स) (एमआर-08782डब्ल्यू), एएमसी, 12 अप्रैल 2009

स्वीन शिवरैन (एमएस-15011के) (एमआर-08892एल), एएमसी, 12 अप्रैल 2009

कप्तान के पद पर

अभिनव दिक्षित (एमआर-08656के), एएमसी, 01 फरवरी 2009

अमित किशोर (एमएस-14738एच) (एमआर-08891एच), एएमसी, 30 दिसम्बर 2004, इन्टर्नशिप पूरा होने के पश्चात्

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 फरवरी 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

यश पांडे
त्रिगे

उप महानिदेशक स.से.चि.से. (मा सं.)

राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं. 145, दिनांक 3 मार्च 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित एनसीसी पूर्णकालिक महिला अधिकारियों की पदोन्नतियां करते हैं। उनके पदोन्नति की तिथि व रैंक सम्बन्धी वरिष्ठता उनके नाम के सामने दी गई है:--

एनसीसी पूर्णकालिक महिला अधिकारी

(स्थायी कमीशन प्राप्त)

कैप्टन से मेजर

नाम, रैंक, पीसी नं., तथा पदोन्नति की तारीख

कैप्टन पी एस लतिफा बानू एनसीसी/जीडी/पीसी-(12502), 13 मई 2009

कैप्टन एस चन्द्रा एनसीसी/जीडी/पीसी-(12503), 07 मई 2009

कैप्टन के के माहेश्वरी एनसीसी/जीडी/पीसी-(12504), 07 मई 2009

एस जे डेविड
कर्नल
निदेशक (एमएस)

सं. 146, दिनांक 4 मार्च 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं:--

नियमित सेना
स्थायी कमीशन

लेफ्टि. से कप्तान

आईसी सं., नाम तथा आर्म

(आईसी-66179) राज सिंह, एसी

(आईसी-66181) राकेश यादव, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66182) सैयद मोहम्मद आरीफ, एएससी

(आईसी-66184) तेजेन्द्र सिंह शक्तावत, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66185) महेश बेल्लाद, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66187) सौरभ डिङ्डी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66188) भगत अक्षय सुरेश, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66189) हर्ष वर्धन सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66192) रोहित कुमार अशोक पाटिल, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66193) बिरेन परांगडे, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66195) हिम्मत सिंह, एसी

(आईसी-66198) रवि कान्त, आर्टी

(आईसी-66199) बरुण सिंघा, आर्टी

(आईसी-66200) मिर्जा जह्द बेग, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66201) सुनील यादव, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66202) लोखंडे पराग कृष्णराव, आर्टी

(आईसी-66203) जितेश बी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66204) राणाडे चारुदत्त जयन्त, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66205) विजयेन्द्र प्रताप सिंह, इन्ट

(आईसी-66207) सतीश चन्द्र लखेड़ा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66209) दामले अभिजीत रजनीकान्त, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66210) रोहित एस शेखावत, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66211) पुनीत मल्होत्रा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66212) मोहन राव, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66213) रोहित शर्मा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66215) कपिल राय, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66216) रहेश बी कुरुप, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66219) विजयन्त बिष्ट, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66220) प्रवीण, एओसी

(आईसी-66221) नितिन राणा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66222) अमन अमरिक सिंह, एससी
 (आईसी-66223) श्रिनिवासुलु के, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66224) काझी निहाल इसामुद्दीन, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66225) एन तोषी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66226) चक्कानातु शिबू जॉन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66227) विवेक एच सहाय, आर्टी
 (आईसी-66229) मनोज कुमार तिवारी, आर्टी
 (आईसी-66230) राघवेन्द्र सिंह, एससी
 (आईसी-66231) जितेन्द्र सिंह शाकावत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66232) घाटगे रमेश उदेयसिन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66233) पाटिल अर्जुन सुरेश, एसी
 (आईसी-66234) निखिल वाघ, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66235) शैलेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66236) रंजन कुमार झा, आर्टी
 (आईसी-66237) मनमीत सिंह लखा, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66238) अनंत राजू आर पी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66239) भारतेन्दू रावत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66241) जयवर्धन सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66242) रविश कुमार सिंह, आर्टी
 (आईसी-66243) अभय बिष्ट, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66245) अमित द्विवेदी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66248) कुंवर सौरभ सिंह बिष्ट, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66249) गोपाल मेहरा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66250) बिक्रम सिंह सिद्धू, एओसी
 (आईसी-66251) नरेश कुमार राणा राजपूत, आर्टी
 (आईसी-66254) सुभाशीष मजुमदार, आर्टी
 (आईसी-66256) मनीष सिंह, आर्टी
 (आईसी-66257) अमित बोरा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66258) जयपाल सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66260) शोभित डोगरा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66263) साहिल ठाकुर, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66264) गुर नंदर सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66265) हरजीत सिंह, आर्टी
 (आईसी-66266) अरुण के, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66268) मनीष सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66269) वरुण कुमार, आर्टी
 (आईसी-66271) भवानी सिंह राणावत, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66272) नरेश चन्द्र तिवारी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66273) अतीत हैन्सन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66274) विकास दुबे, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66280) सिद्धार्थ सक्सेना, एसी
 (आईसी-66281) सियान्टो के, आर्टी
 (आईसी-66282) ध्यानचन्द राजकुमार, आर्टी
 (आईसी-66284) संदीप कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66288) हिम्मत सिंह सांघा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66291) विक्रांत कुमार झाल्टे, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66293) अनिल पुन, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66295) परिचय अरोड़ा, एसी
 (आईसी-66296) त्रिवेन्द्र सिंह राठौर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66297) सोमनाथ राय, आर्टी
 (आईसी-66300) पुखरामबम हीरोजीत सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66302) रजत शर्मा, आर्टी
 (आईसी-66304) अतोम किरण कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66305) इरेगबम जयन्तकुमार सिंह, आर्टी
 (आईसी-66306) मनीष दधीच, एसी
 (आईसी-66308) अभिषेक प्रकाश, एएडी
 (आईसी-66310) अभिषेक सिंघल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66311) भरत सिंह चौहान, एसी
 (आईसी-66312) मनीष सिसोही, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66314) सुनन्दन नन्दी, आर्टी
 (आईसी-66316) गोडबोले आशिष विश्वनाथ, आर्टी

--17 अप्रैल 2007

जसवन्त सिंह
 संयुक्त निदेशक
 एम एस-8सी

सं. 147, दिनांक 4 मार्च 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

तोपखाना रेजिमेन्ट

सबस्टैंटिव सूबेदार मेजर (जीडी) के पद में

सूबेदार बगाडे गजानन हरी भाऊ (जेसी-261843एन), 02 मार्च 2009/01 फरवरी 2009 *

सूबेदार आँकार सिंह राठोड (जेसी-260344एम), 01 मार्च 2009

सूबेदार बलबीर सिंह यादव (जेसी-259875एक्स), 02 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *

सूबेदार के देवेन्द्रन (जेसी-261639पी), 09 मई 2009/01 अप्रैल 2009 *

सूबेदार लक्ष्मीनारायण (जेसी-261663एल), 25 मई 2009/01 अप्रैल 2009 *

सूबेदार ईश्वर दयाल शर्मा (जेसी-262118एन), 01 मई 2009

सूबेदार अशोक कुमार मिश्रा (जेसी-261272ए), 02 जून 2009/01 जून 2009 *

सूबेदार दलवी नागोजी राव (जेसी-264089एच), 01 जून 2009

सूबेदार रणबीर सिंह (जेसी-263543एल), 01 जून 2009

सूबेदार परविन्दर सिंह (जेसी-260323डब्ल्यू), 01 मार्च 2009

सूबेदार मनजीत सिंह (जेसी-263388पी), 03 जून 2009/01 जून 2009 *

सूबेदार जी माकुन्धु (जेसी-264629डब्ल्यू), 01 जून 2009

सूबेदार रमेश चन्द्र सिंह (जेसी-263034एम), 05 जून 2009/01 जून 2009 *

सूबेदार जगवीर सिंह (जेसी-261689ए), 08 मई 2009/01 अप्रैल 2009 *

सूबेदार गुरुसिन्दर सिंह (जेसी-262983एम), 02 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *

सूबेदार राजेन्द्र बहादुर सिंह (जेसी-264010पी), 05 जून 2009/01 मई 2009 *

सूबेदार सुनील कुमार एम के (जेसी-263932एल), 07 मई 2009/01 मई 2009 *

सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-261071एफ), 01 जुलाई 2009/01 मार्च 2009 *

सूबेदार प्रेमरंजन बी के (जेसी-261000ए), 01 जून 2009

सूबेदार ओसेफ ए पी (जेसी-261675ए), 20 जुलाई 2009/01 अप्रैल 2009 *

2-504 GI/2009

सूबेदार पुरन चन्द्र काबोल (जेसी-260939के), 01 जून 2009

सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-260836एल), 08 जून 2009/01 जून 2009 *

सूबेदार अप्पू एस (जेसी-263727के), 05 मई 2009/01 मई 2009 *

सूबेदार निकम महादेव श्रीरंग (जेसी-262787एम), 08 जून 2009/01 अप्रैल 2009 *

सूबेदार कुना कोस इसाक (जेसी-262827एच), 11 मई 2009/01 अप्रैल 2009 *

सूबेदार हरी बन्धु प्रधान (जेसी-264728वाई), 03 अगस्त 2009/01 जुलाई 2009 *

सूबेदार मनी बालन पी (जेसी-261581एच), 01 जून 2009

सूबेदार बाबासाहेब वामनराव वाध (जेसी-263140एल), 22 जून 2009/01 जून 2009 *

सूबेदार जोगेन्द्र सिंह (जेसी-262988एल), 03 अगस्त 2009/01 अगस्त 2009 *

सूबेदार अशोक मोटार (जेसी-261554वाई), 03 अगस्त 2009/01 अगस्त 2009 *

सूबेदार बीर बहादुर थापा (जेसी-260482एन), 01 अगस्त 2009

सूबेदार शर्मा कानू भाई अम्बालाल (जेसी-263237डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार गुरुदेव सिंह (जेसी-263239एफ), 21 जुलाई 2009/01 जून 2009 *

सबस्टैंटिव सूबेदार मेजर (एआईजी) के पद में

सूबेदार सूबेदार सिंह यादव (जेसी-258921पी), 24 नवम्बर 2008/01 दिसम्बर 2007 *

सूबेदार कबाल सिंह (जेसी-258928वाई), 09 जून 2009/01 जून 2009 *

सबस्टैंटिव सूबेदार (एआईजी) के पद में

नायब सूबेदार ब्रम्हानन्द दुबे (जेसी-269447एम), 01 जून 2009/09 जून 2009 *

नायब सूबेदार इन्द्रजीत सिंह (जेसी-269197डब्ल्यू), 01 जून 2009

नायब सूबेदार गुरुपाल सिंह मेहता (जेसी-268836ए), 02 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *

नायब सूबेदार कदम राजेन्द्र मारुती (जेसी-269444वाई), 09 मई 2009/01 मई 2009 *

नायब सूबेदार दिवाकर एम जे (जेसी-270416वाई), 01 जून 2009

नायब सूबेदार नेत्रापाल सिंह चौहान (जेसी-269446के), 01 जून 2009

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद तिवारी (जेसी-269448पी), 01 जून 2009

नायब सूबेदार रामावतार मीना (जेसी-268835एक्स), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार संजीव कुमार (जेसी-269198वाई), 01 मई 2009

नायब सूबेदार जय पाल (जेसी-269452एक्स), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार नरेश कुमार यादव (जेसी-269191पी), 10 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009 *

नायब सूबेदार उपेन्द्र कुमार शर्मा (जेसी-268839एन), 05 मई 2009/01 अप्रैल 2009 *

नायब सूबेदार कमलजीत सिंह (जेसी-269450एम), 01 जून 2009

नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-269199एफ), 01 जून 2009

नायब सूबेदार राजेश कुमार सिंह (जेसी-269200एल), 08 जुलाई 2009/01 जुलाई 2009 *

नायब सूबेदार अनी एस (जेसी-269454एच), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार प्यारे लाल यादव (जेसी-270071एच), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार गनाना सम्मानदन इ (जेसी-269196एन), 01 जून 2009

नायब सूबेदार अबुला श्रीनिवासा (जेसी-265913वाई), 06 अगस्त 2009/19 जून 2009 *

नायब सूबेदार शंकर सिंह (जेसी-265616एल), 08 अगस्त 2009/19 जून 2009 *

नायब सूबेदार बिजेन्द्र (जेसी-266083ए), 01 अगस्त 2009/19 जून 2009 *

नायब सूबेदार के दामोदरन (जेसी-265914एफ), 03 अगस्त 2009/19 जून 2009 *

नायब सूबेदार मोटाराम (जेसी-265618डब्ल्यू), 05 अगस्त 2009/19 जून 2009 *

नायब सूबेदार बलजीन्दर सिंह पानढेर (जेसी-265615एच), 01 अगस्त 2009/19 जून 2009 *

नायब सूबेदार दिनकर चौधरी (जेसी-269941एच), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-269201एन), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार वी वी रथनाकरन (जेसी-269943एन), 03 अगस्त 2009/01 अगस्त 2009 *

नायब सूबेदार जय हिंद सिंह (जेसी-265909डब्ल्यू), 05 अगस्त 2009/19 जून 2009 *

नायब सूबेदार गुरुदीप सिंह (जेसी-266084एच), 03 अगस्त 2009/19 जून 2009 *

सबस्टैटिव सूबेदार (एआईजी) के पद में (टीआयएफसी)

सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-260053एम), 22 जुलाई 2009/01 जुलाई 2009 *

सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-261449एच), 03 जुलाई 2009/01 जुलाई 2009 *

सबस्टैटिव सूबेदार (जीडी) के पद में

नायब सूबेदार बुटे विजय कुमार वामन राव (जेसी-267471के), 21 जुलाई 2009/10 जुलाई 2008 *

नायब सूबेदार जोस वी ओ (जेसी-269582ए), 11 अक्टूबर 2008/01 अगस्त 2008 *

नायब सूबेदार सुशील कुमार सिंह (जेसी-270498एम), 12 सितम्बर 2009/02 अगस्त 2008 *

नायब सूबेदार हन्स राज (जेसी-268212एन), 11 अगस्त 2009/01 अक्टूबर 2008 *

नायब सूबेदार लाखन लाल (जेसी-270095एम), 08 जुलाई 2009/01 दिसम्बर 2008 *

नायब सूबेदार कमलेश्वर प्रसाद (जेसी-268915पी), 07 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 *

नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-268184एम), 22 अप्रैल 2009/05 जनवरी 2009 *

नायब सूबेदार बालाकृष्णन बी (जेसी-270092वाई), 05 जून 2009/01 फरवरी 2009 *

नायब सूबेदार सतनाम सिंह (जेसी-269329वाई), 13 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *

नायब सूबेदार सुशांत कुमार कुनार (जेसी-269698डब्ल्यू), 02 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *

नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-269024वाई), 27 अप्रैल 2009/05 मार्च 2009 *

नायब सूबेदार चिदानन्द मुर्ती (जेसी-264661एल), 07 जून 2009/01 अप्रैल 2009 *

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-267348एल), 02 जुलाई 2009/01 अप्रैल 2009 *

नायब सूबेदार शिव सिंह (जेसी-270022ए), 02 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009 *

नायब सूबेदार श्री भुरे सिंह नरवारीया (जेसी-269700एच), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार बी के सोमा शेखरा रेड्डी (जेसी-269536एल), 06 मई 2009/01 अप्रैल 2009 *

नायब सूबेदार पार्थसारथी एन (जेसी-270819वाई), 16 जून 2009/
01 अप्रैल 2009*

नायब सूबेदार ए विजयन (जेसी-263889पी), 10 जून 2009/
01 मई 2009*

नायब सूबेदार राजपाल सिंह भंडारी (जेसी-262911एच), 17 जुलाई
2009/01 मई 2009*

नायब सूबेदार राय कारोलीन (जेसी-264399एन), 12 मई 2009/
01 मई 2009*

नायब सूबेदार विनोद कुमार (जेसी-266717एल), 28 अगस्त
2009/01 मई 2009*

नायब सूबेदार महावीर (जेसी-266571एच), 01 जून 2009

नायब सूबेदार करनैल सिंह (जेसी-268444एम), 12 जून 2009/
01 जून 2009*

नायब सूबेदार कृष्णन देव (जेसी-262584एच), 01 जुलाई 2009/
26 जून 2009*

नायब सूबेदार उमेश चन्द्रा कार (जेसी-270230पी), 27 अगस्त
2009/01 अगस्त 2009*

नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह रावत (जेसी-267816ए), 08 अगस्त
2009/01 अगस्त 2009*

नायब सूबेदार रमेश चन्द्रा पाण्डेय (जेसी-268414पी), 28 जुलाई
2009/01 अगस्त 2008*

नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जेसी-268590एम), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार आनंदा के डी (जेसी-269494के), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-269784एफ), 20 अगस्त
2009/01 अगस्त 2009*

नायब सूबेदार नरपत सिंह (जेसी-269595एक्स), 06 अगस्त
2009/01 अगस्त 2009*

नायब सूबेदार अमर नाथ सिंह (जेसी-269681एच), 01 अगस्त
2009

नायब सूबेदार वजीर सिंह (जेसी-269600एक्स), 02 अगस्त 2009/
01 अगस्त 2009*

नायब सूबेदार सुरिन्दर कुमार (जेसी-271239डब्ल्यू), 01 सितम्बर
2009/01 अगस्त 2009*

नायब सूबेदार रतनेश्वर साकीया (जेसी-271453वाई), 01 सितम्बर
2009/01 अगस्त 2009*

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

कोर ऑफ सिग्नल्स

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार शक्ति सिंह (सं. 14267503एक्स अब जेसी-378739एल),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार सूर्यभान यादव (सं. 14253104एच अब जेसी-378336एल),
09 जुलाई 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार धरमवीर (सं. 14262509पी अब जेसी-378337एन),
01 जुलाई 2008

हवलदार दिबींदु सरकार (सं. 14264312एक्स अब
जेसी-378338डब्ल्यू), 21 जुलाई 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार के बी महापात्रा (सं. 14259519एन अब जेसी-
378339वाई), 01 जुलाई 2008

हवलदार करतार सिंह (सं. 14253156वाई अब जेसी-378340एन),
01 जुलाई 2008

हवलदार गिरराज सिंह (सं. 14253610एन अब जेसी-378341डब्ल्यू),
01 जुलाई 2008

हवलदार राम अभिलाष सिंह (सं. 14253683ए अब जेसी-
378342वाई), 07 जुलाई 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार पान सिंह करायत (सं. 14249877एल अब जेसी-
378343एफ), 01 जुलाई 2008

हवलदार धरमवीर (सं. 14253719एन अब जेसी-378344के),
01 जुलाई 2008

हवलदार रवीन्द्र सिंह (सं. 14253507एच अब जेसी-378345एम),
05 जुलाई 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार एम बलेस्वरैअह (सं. 14257447डब्ल्यू अब जेसी-
378346पी), 01 जुलाई 2008

हवलदार कामेश्वर भारती (सं. 14249898एफ अब जेसी-
378347एक्स), 01 जुलाई 2008

हवलदार तरसेम सिंह (सं. 14250132के अब जेसी-378348ए),
01 जुलाई 2008

हवलदार लक्ष्मी कांता पाल (सं. 14250939एम अब जेसी-
378349एच), 01 जुलाई 2008

हवलदार रामदीन (सं. 14253947डब्ल्यू अब जेसी-378350एक्स),
14 जुलाई 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 14254249ए अब जेसी-378351ए),
01 जुलाई 2008

हवलदार राम ग्यान यादव (सं. 14262285ए अब जेसी-378352एच),
04 जुलाई 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार जय कृष्णा (सं. 14252525वाई अब जेसी-378353एल),
01 जुलाई 2008

हवलदार सुरेंद्र राम (सं. 14264582एम अब जेसी-378354एन),
14 जुलाई 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार पी डी बिनाके (सं. 14250555एक्स अब जेसी-
378355डब्ल्यू), 01 जुलाई 2008

हवलदार राम प्रीति सिंह (सं. 14251163डब्ल्यू अब जेसी-
378356वाई), 01 जुलाई 2008

हवलदार रमा शंकर तिवारी (सं. 14251734के अब जेसी-
378357एफ), 01 जुलाई 2008

हवलदार अवधेश प्रसाद (सं. 14255568वाई अब जेसी-378389के),
01 अगस्त 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 02 जून 2008 से दी जायेगी)

हवलदार मुलायम सिंह (सं. 14246104ए अब जेसी-378387वाई),
01 अगस्त 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार रमेश चन्द (सं. 14264859ए अब जेसी-378388एफ),
01 अगस्त 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 12 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार बिजय कुमार सिंह (सं. 14251882पी अब जेसी-
378391एफ), 08 अगस्त 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)

हवलदार राज कुमार (सं. 14263687के अब जेसी-378392के),
01 अगस्त 2008

हवलदार सज्जन सिंह कदम (सं. 14252538डब्ल्यू अब जेसी-
378393एम), 06 अगस्त 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)

हवलदार राधानाथ गौरै (सं. 14260510एल अब जेसी-378394पी),
01 अगस्त 2008

हवलदार धनी राम गोगई (सं. 14265630एन अब जेसी-
378395एक्स), 01 अगस्त 2008

हवलदार रिशल सिंह (सं. 14251845एफ अब जेसी-378396ए),
01 अगस्त 2008

हवलदार राम कुमार सिंह (सं. 14252032एक्स अब जेसी-
378397एच), 01 अगस्त 2008

हवलदार सुरेश पाल सिंह (सं. 14252703डब्ल्यू अब जेसी-
378398एल), 01 अगस्त 2008

हवलदार पी के कोनेर (सं. 14253184एल अब जेसी-378399एन),
01 अगस्त 2008

हवलदार ध्रुव सिंह रावत (सं. 14264066एक्स अब जेसी-
378400एक्स), 01 अगस्त 2008

हवलदार विनोद कुमार (सं. 14264600के अब जेसी-378401ए),
01 अगस्त 2008

हवलदार के चंद्रो प्रधान (सं. 14265923वाई अब जेसी-378402एच),
01 अगस्त 2008

हवलदार देवेन्द्र पाल सिंह (सं. 14266567डब्ल्यू अब जेसी-
378403एल), 01 अगस्त 2008

हवलदार मुन्शी राम (सं. 14266860एन अब जेसी-378404एन),
01 अगस्त 2008

हवलदार एम डी गालिब (सं. 14268238वाई अब जेसी-
378405डब्ल्यू), 01 अगस्त 2008

हवलदार पाटिल भीमा राव हरि (सं. 14269015एन अब जेसी-
378406वाई), 19 अगस्त 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)

हवलदार हनुमान सिंह (सं. 14269235एक्स अब जेसी-378407एफ),
01 अगस्त 2008

हवलदार शिव नन्दन (सं. 14279487के अब जेसी-378408के),
01 अगस्त 2008

हवलदार श्याम बहादुर (सं. 14269396ए अब जेसी-378409एम),
01 अगस्त 2008

हवलदार बी राजेन्द्र शिवाजी (सं. 14269946एक्स अब जेसी-
378410एफ), 01 अगस्त 2008

हवलदार रामहेत सिंह कुशवाह (सं. 14269970एन अब जेसी-
378411के), 01 अगस्त 2008

हवलदार श्रीनिवास दीक्षित (सं. 14253405एम अब जेसी-
378412एम), 01 अगस्त 2008

- हवलदार श्याम बिहारी सिंह (सं. 14251578एल अब जेसी-378390वाई), 13 अगस्त 2008
- हवलदार सचिन्द्रा नाथ रे (सं. 13885859पी अब जेसी-378455एफ), 13 अगस्त 2008
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जून 2008 से दी जायेगी)
- हवलदार कृष्णा कुमार शाह (सं. 14250968एफ अब जेसी-378452एन), 01 सितम्बर 2008
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जून 2008 से दी जायेगी)
- हवलदार त्रिलोचन बोरह (सं. 14251315एम अब जेसी-378453डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जून 2008 से दी जायेगी)
- हवलदार रति पाल सिंह (सं. 14255219पी अब जेसी-378454वाई), 01 सितम्बर 2008
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जून 2008 से दी जायेगी)
- हवलदार भरत सिंह (सं. 14247406वाई अब जेसी-378451एल), 02 सितम्बर 2008
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जून 2008 से दी जायेगी)
- हवलदार शिव सिंह (सं. 14255319ए अब जेसी-378456के), 01 सितम्बर 2008
- हवलदार चन्द्रधर बोरह (सं. 14258908एफ अब जेसी-378457एम), 01 सितम्बर 2008
- हवलदार सुब्रामणी के (सं. 14265270एच अब जेसी-378458पी), 01 सितम्बर 2008
- हवलदार पी साम्बाजी कृष्णा (सं. 14266703एफ अब जेसी-378459एक्स), 01 सितम्बर 2008
- हवलदार मोहन लाल बासु (सं. 14250945ए अब जेसी-378460एम), 01 सितम्बर 2008
- हवलदार विरेन्द्र नाथ सिंह (सं. 14259369एच अब जेसी-378461पी), 01 सितम्बर 2008
- हवलदार मनोहर महतो (सं. 14259807ए अब जेसी-378462एक्स), 05 सितम्बर 2008
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)
- हवलदार दिनेश कुमार सिंह (सं. 14252842ए अब जेसी-378463ए), 01 सितम्बर 2008
- हवलदार मनजिंदर सिंह (सं. 3382844एफ अब जेसी-378464एच), 01 सितम्बर 2008
- हवलदार सुबे सिंह यादव (सं. 14255279के अब जेसी-378465एल), 01 सितम्बर 2008
- 3—504 GI/2009
- हवलदार के राजेंद्रिन (सं. 14255442वाई अब जेसी-378466एन), 01 सितम्बर 2008
- हवलदार भूपेन्द्र सिंह (सं. 14255602एन अब जेसी-378467डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008
- हवलदार मूल चन्द (सं. 14257402डब्ल्यू अब जेसी-378468वाई), 01 सितम्बर 2008
- हवलदार मल सिंह (सं. 14258098के अब जेसी-378469एफ), 01 सितम्बर 2008
- हवलदार मनोज कुमार झा (सं. 14246929एल अब जेसी-378470डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008
- हवलदार तिलक राज (सं. 14253090एन अब जेसी-378471वाई), 01 सितम्बर 2008
- हवलदार जगजीत सिंह (सं. 3383187पी अब जेसी-378472एफ), 08 सितम्बर 2008
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)
- हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 14256664ए अब जेसी-378473के), 01 सितम्बर 2008
- हवलदार माखन दत्ता (सं. 14262414पी अब जेसी-378474एम), 01 सितम्बर 2008
- हवलदार बृजेश सिंह (सं. 14267615एक्स अब जेसी-378475पी), 01 सितम्बर 2008
- हवलदार जय पाल सिंह (सं. 14253322के अब जेसी-378476एक्स), 01 सितम्बर 2008
- हवलदार अरविन्द कुमार (सं. 14247278एम अब जेसी-378477ए), 01 सितम्बर 2008
- हवलदार अनादा कृष्णन (सं. 14253467एम अब जेसी-378512एक्स), 01 अक्टूबर 2008
- हवलदार राम मिल्लन बधाई (सं. 14254633एफ अब जेसी-378513ए), 01 अक्टूबर 2008
- हवलदार चन्दु कुट्टन के जी (सं. 14268732पी अब जेसी-378514एच), 12 अक्टूबर 2008
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)
- हवलदार बंशी धर (सं. 14263587वाई अब जेसी-378515एल), 17 अक्टूबर 2008
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)
- हवलदार वी प्रताप मिश्रा (सं. 14267427डब्ल्यू अब जेसी-378516एन), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार राजेन्द्र कुमार जेना (सं. 14269692एल अब जेसी-378517डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार विजय शंकर तिवारी (सं. 14268085ए अब जेसी-378518वाई), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार ज्योतिष कुमार महतो (सं. 14268672एल अब जेसी-378519एफ), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार ओम प्रकाश जाट (सं. 14268400एल अब जेसी-378520डब्ल्यू), 09 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार कर्ताराम सिंह (सं. 14268539एच अब जेसी-378521वाई), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार मुरली सिंह (सं. 14268840वाई अब जेसी-378522एफ), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार बलदेव सिंह ठाकुर (सं. 14268814एक्स अब जेसी-378523के), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार एस शिवा कुमार (सं. 14268795एक्स अब जेसी-378524एम), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार सुगाथन एस (सं. 14264908एक्स अब जेसी-378525पी), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार अशोक कुमार जेना (सं. 14267784वाई अब जेसी-378526एक्स), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार यतिन्दर कुमार (सं. 14269678वाई अब जेसी-378527ए), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार राजेन्द्र सिंह रावत (सं. 14269152एम अब जेसी-378528एच), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार राम नाथ ओझा (सं. 14269285एच अब जेसी-378529एल), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार शंकर सिंधे (सं. 14269461पी अब जेसी-378530ए), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार वी एस वेंकटरात्री नायडू (सं. 14269643एच अब जेसी-378531एच), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार करनैल सिंह (सं. 14269799ए अब जेसी-378532एल), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार सावंत श्रीकांत महादेव (सं. 14269801एम अब जेसी-378533एन), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार राम किशन (सं. 14269850पी अब जेसी-378534डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार अजय कुमार साहु (सं. 15350132पी अब जेसी-378535वाई), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार एस के मालायिल (सं. 15350386एम अब जेसी-378536एफ), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार विजय बहादुर यादव (सं. 14257141एन अब जेसी-378537के), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार अशुतोष मिश्रा (सं. 15350539एल अब जेसी-378538एम), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार आदित्य कुमार सिंह (सं. 15350536एक्स अब जेसी-378539पी), 24 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार बिरेन्द्र सिंह (सं. 15350695पी अब जेसी-378540के), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार अरुणा कुमार नायक (सं. 15350660वाई अब जेसी-378541एम), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार प्रेम चन्द्र तिवारी (सं. 14249807एम अब जेसी-378543एक्स), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार जगदीश प्रसाद (सं. 14262450ए अब जेसी-378544ए), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार एल पी पांडे (सं. 15351252ए अब जेसी-378545एच), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार धनुर्या मेहेर (सं. 14265315एक्स अब जेसी-378546एल), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार भागीरथ (सं. 14268817एल अब जेसी-378547एन), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार पाटिल दत्तात्रेया बी (सं. 14269973एफ अब जेसी-378548डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार बृज नंदन राय (सं. 15351440एफ अब जेसी-378549वाई), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार जीत नारायण सिंह (सं. 15351506एम अब जेसी-378550एन), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार सुरेश चन्द्र (सं. 15351532एन अब जेसी-378551डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार राजपाल सिंह कुशवाह (सं. 14265657एल अब जेसी-378571के), 01 नवम्बर 2008

हवलदार अनिल कुमार (सं. 14268101एम अब जेसी-378572एम), 01 नवम्बर 2008

हवलदार बिजॉय कुमार मंडल (सं. 14267002एक्स अब जेसी-378573पी), 01 नवम्बर 2008

हवलदार अनिल कुमार सिंह (सं. 15351910एफ अब जेसी-378574एक्स), 01 नवम्बर 2008

- हवलदार राकेश कुमार (सं. 15351988एम अब जेसी-378575ए),
01 नवम्बर 2008
- हवलदार प्रेमा राजन पी के (सं. 15352947पी अब जेसी-378576एच), 01 नवम्बर 2008
- हवलदार सुरेश कुमार ए (सं. 15352724एक्स अब जेसी-378577एल),
01 नवम्बर 2008
- हवलदार गुरुवेली चिना बाबू (सं. 15350586एच अब जेसी-378578एन), 01 नवम्बर 2008
- हवलदार अर्जुन सिंह (सं. 15351303एच अब जेसी-378579डब्ल्यू),
01 नवम्बर 2008
- हवलदार बिपिन चन्द्र (सं. 15351409पी अब जेसी-378580एल),
01 नवम्बर 2008
- हवलदार नसीर अहमद खान (सं. 15351447एल अब जेसी-378581एन), 01 नवम्बर 2008
- हवलदार पाटिल महादेव एस (सं. 15351557ए अब जेसी-378582डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008
- हवलदार एम डी ए सुभान लस्कर (सं. 15352170के अब जेसी-378583वाई), 01 नवम्बर 2008
- हवलदार तरजिन्दर सिंह (सं. 15352039एम अब जेसी-378584एफ),
01 नवम्बर 2008
- हवलदार रवि चन्द्रन बी एम (सं. 15352198के अब जेसी-378585के), 01 नवम्बर 2008
- हवलदार बुलबुल गोगई (सं. 15352326डब्ल्यू अब जेसी-378586एम),
01 नवम्बर 2008
- हवलदार लीलू राम (सं. 15352417ए अब जेसी-378587पी),
01 नवम्बर 2008
- हवलदार सोम सिंह (सं. 15352404एच अब जेसी-378588एक्स),
01 नवम्बर 2008
- हवलदार हरेन्द्र सिंह (सं. 15352457एफ अब जेसी-378589ए),
01 नवम्बर 2008
- हवलदार श्याम बिहारी प्रसाद (सं. 14251889वाई अब जेसी-378590पी), 01 नवम्बर 2008
- हवलदार विनोद शंकर मिश्रा (सं. 15351353एन अब जेसी-378542पी), 28 दिसम्बर 2008
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)
- हवलदार हेमैन्द्र सिंह (सं. 14269227वाई अब जेसी-378602वाई),
01 दिसम्बर 2008
- हवलदार कनवर पाल (सं. 14252604एन अब जेसी-378603एफ),
01 दिसम्बर 2008
- हवलदार अनीश कुमार पाण्डे (सं. 15351452डब्ल्यू अब जेसी-378604के), 01 दिसम्बर 2008
- हवलदार विजेन्द्र पाल सिंह (सं. 14255109ए अब जेसी-378605एम),
01 दिसम्बर 2008
- हवलदार मूल चन्द जाट (सं. 14268802एच अब जेसी-378606पी),
01 दिसम्बर 2008
- हवलदार राजेश कुमार (सं. 14255268एक्स अब जेसी-378607एक्स), 01 दिसम्बर 2008
- हवलदार भद्रा कांता बोरडोली (सं. 14250003के अब जेसी-378608ए), 01 दिसम्बर 2008
- हवलदार पाटिल मल गौडा बल गौडा (सं. 14268808के अब जेसी-378609एच), 01 दिसम्बर 2008
- हवलदार अशोक कुमार (सं. 14254715एक्स अब जेसी-378610एक्स), 01 दिसम्बर 2008
- हवलदार एच एम युसुफ अब्दुल कादर (सं. 14266799पी अब जेसी-378611ए), 01 दिसम्बर 2008
- हवलदार नारेन सिंह के (सं. 14258080एन अब जेसी-378612एच),
01 दिसम्बर 2008
- हवलदार पंसारे मधुकर भगवान (सं. 14262701वाई अब जेसी-378613एल), 01 दिसम्बर 2008
- हवलदार सरत सिंह (सं. 14261362एक्स अब जेसी-378614एन),
01 दिसम्बर 2008
- हवलदार प्रताप सिंह (सं. 15351959एक्स अब जेसी-378615डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2008
- हवलदार आर बी यादव (सं. 14249161एम अब जेसी-378616वाई),
01 दिसम्बर 2008
- हवलदार जोगिन्दर सिंह (सं. 15351380एक्स अब जेसी-378617एफ),
01 दिसम्बर 2008
- हवलदार विजय कुमार (सं. 14263508वाई अब जेसी-378618के),
01 दिसम्बर 2008
- हवलदार मिथिलेश कुमार (सं. 14263731एच अब जेसी-378619एम), 01 दिसम्बर 2008
- हवलदार रामामूर्ति आर (सं. 14267370एम अब जेसी-378620एफ),
01 दिसम्बर 2008
- हवलदार साजू पी (सं. 14263668वाई अब जेसी-378621के),
01 दिसम्बर 2008
- हवलदार एस एन चौधरी (सं. 14267710के अब जेसी-378622एम),
01 दिसम्बर 2008
- हवलदार राजेन्द्र प्रसाद सिंह (सं. 15350100एम अब जेसी-378623पी), 01 दिसम्बर 2008

- हवलदार एस कुमार त्रिपाठी (सं. 15351355वाई अब जेसी-378624एक्स), 01 दिसम्बर 2008
- हवलदार सत्येन्द्र पी डी सिंह (सं. 15351400ए अब जेसी-378625ए), 01 दिसम्बर 2008
- हवलदार हेलवातकार प्रवीन बी (सं. 15351658एन अब जेसी-378626एच), 10 दिसम्बर 2008
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी)
- हवलदार साथयान चलातन (सं. 14258522एफ अब जेसी-378627एल), 01 दिसम्बर 2008
- हवलदार नित्यानंद सिंह (सं. 14266372एल अब जेसी-378628एन), 01 दिसम्बर 2008
- हवलदार शाजी एम जे (सं. 15387260के अब जेसी-378629डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2008
- हवलदार राकेश कुमार गुप्ता (सं. 14268428एल अब जेसी-378630एल), 01 दिसम्बर 2008
- हवलदार मदन कुमार शर्मा (सं. 14254084एम अब जेसी-378631एन), 01 दिसम्बर 2008
- हवलदार मनोज कुमार यादव (सं. 14262609ए अब जेसी-378632डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2008
- हवलदार चन्द्रावीर सिंह (सं. 14267637डब्ल्यू अब जेसी-378633वाई), 01 दिसम्बर 2008
- हवलदार जे के पान्डे (सं. 14258828के अब जेसी-378711एल), 01 जनवरी 2009
- हवलदार एस पी सिंह चौहान (सं. 14252520ए अब जेसी-378712एन), 01 जनवरी 2009
- हवलदार एम राज कुमार (सं. 14266603डब्ल्यू अब जेसी-378713डब्ल्यू), 01 जनवरी 2009
- हवलदार डी के वर्मा (सं. 14254972एफ अब जेसी-378714वाई), 01 जनवरी 2009
- हवलदार देबाशीष सरकार (सं. 14258458पी अब जेसी-378725एल), 02 जनवरी 2009
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)
- हवलदार कुर्दा राम (सं. 14250786एन अब जेसी-378726एन), 02 जनवरी 2009
- हवलदार श्री राम (सं. 14254145वाई अब जेसी-378728वाई), 02 जनवरी 2009
- हवलदार पदम बहादुर थापा (सं. 14249984एम अब जेसी-378729एफ), 02 जनवरी 2009
- हवलदार भुनेश्वर सिंह (सं. 14253382डब्ल्यू अब जेसी-378730डब्ल्यू), 02 जनवरी 2009
- हवलदार चिंग्लेन सिंघा (सं. 14253522एक्स अब जेसी-378731वाई), 02 जनवरी 2009
- हवलदार राम निवास (सं. 14256120एल अब जेसी-378733के), 02 जनवरी 2009
- हवलदार आर अब्दुल जमील (सं. 14248564ए अब जेसी-378734एम), 02 जनवरी 2009
- हवलदार नौनी मोहन शर्मा (सं. 14250000डब्ल्यू अब जेसी-378735पी), 02 जनवरी 2009
- हवलदार रतन लाल (सं. 14262890एन अब जेसी-378736एक्स), 02 जनवरी 2009
- हवलदार एम अयूब सोफी (सं. 14264974ए अब जेसी-378737ए), 19 जनवरी 2009
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जनवरी 2009 से दी जाएगी)
- हवलदार गिरधर सिंह (सं. 14254717पी अब जेसी-378738एच), 02 जनवरी 2009
- हवलदार नायक संजय के (सं. 14266473वाई अब जेसी-378755एच), 01 फरवरी 2009
- हवलदार जया देवन इदाप्पत (सं. 14251546एच अब जेसी-378756एल), 01 फरवरी 2009
- हवलदार जय पाल (सं. 14255841एच अब जेसी-378757एन), 01 फरवरी 2009
- हवलदार ए के उन्नीकृष्णन (सं. 15351332एक्स अब जेसी-378758डब्ल्यू), 01 फरवरी 2009
- हवलदार मिनल कुमार रॉय (सं. 15351600डब्ल्यू अब जेसी-378759वाई), 16 फरवरी 2009
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाएगी)
- हवलदार राजिंदर सिंह (सं. 15352218एम अब जेसी-378760एन), 01 फरवरी 2009
- हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 15352247एफ अब जेसी-378761डब्ल्यू), 01 फरवरी 2009
- हवलदार सकारकर दीपक आर (सं. 15350578के अब जेसी-378762वाई), 01 फरवरी 2009
- हवलदार किशन सिंह महारा (सं. 15351521एफ अब जेसी-378763एफ), 01 फरवरी 2009
- हवलदार सुरेश कुमार काछी (सं. 14252330एन अब जेसी-378764के), 01 फरवरी 2009

- हवलदार त्रिलोक सिंह (सं. 14268836डब्ल्यू अब जेसी-378765एम),
01 फरवरी 2009
- हवलदार करिं कनक राव (सं. 14269579डब्ल्यू अब जेसी-378766पी), 01 फरवरी 2009
- हवलदार रामालिंगेस्वरा राव एस (सं. 15350294एम अब जेसी-378767एक्स), 01 फरवरी 2009
- हवलदार मिलाप चन्द (सं. 15352624एम अब जेसी-378768ए),
01 फरवरी 2009
- हवलदार एम्मानुल जार्ज (सं. 14265811वाई अब जेसी-378769एच), 01 फरवरी 2009
- हवलदार शिव कुमार सिंह (सं. 14267116एच अब जेसी-378770एक्स), 01 फरवरी 2009
- हवलदार राज कुमार सिंह जदोन (सं. 14263993वाई अब जेसी-378771ए), 01 फरवरी 2009
- हवलदार एम लौडुराज (सं. 14266606के अब जेसी-378772एच),
27 फरवरी 2009
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाएगी)
- हवलदार महीपाल सिंह (सं. 14265973के अब जेसी-378773एल),
01 फरवरी 2009
- हवलदार कामता प्रसाद सिंह (सं. 14268421एफ अब जेसी-378774एन), 01 फरवरी 2009
- हवलदार रवीन्द्र सिंह (सं. 14269359एम अब जेसी-378775डब्ल्यू),
01 फरवरी 2009
- हवलदार अन्नेपु कृष्णा राव (सं. 15351091एच अब जेसी-378796एम), 01 मार्च 2009
- हवलदार के राजेश कुमार एस आर एस (सं. 15351549एफ अब जेसी-378797पी), 01 मार्च 2009
- हवलदार बिनोद कुमार (सं. 15351909एम अब जेसी-378798एक्स),
01 मार्च 2009
- हवलदार राम कुमार शर्मा (सं. 15351965एल अब जेसी-378799ए),
01 मार्च 2009
- हवलदार रवीन्द्र कुमार (सं. 15352232वाई अब जेसी--378800के),
01 मार्च 2009
- हवलदार प्रताप चन्द्र पांडा (सं. 15352995पी अब जेसी-378801एम),
01 मार्च 2009
- हवलदार जॉय जॉन (सं. 15352731एन अब जेसी-378802पी),
01 मार्च 2009
- हवलदार धर्मेन्द्र भारद्वाज (सं. 14264040एच अब जेसी-378803एक्स), 01 मार्च 2009
- हवलदार पथरे दादाभाउ सी (सं. 14266802के अब जेसी-378804ए),
01 मार्च 2009
- हवलदार बल राम (सं. 14267589एफ अब जेसी-378805एच),
01 मार्च 2009
- हवलदार एस के उपाध्याय (सं. 14268078के अब जेसी-378806एल), 01 मार्च 2009
- हवलदार रेवा राम तिवारी (सं. 15350408ए अब जेसी-378807एन),
01 मार्च 2009
- हवलदार बसनगौडा वी पाटिल (सं. 15351326के अब जेसी-378808डब्ल्यू), 11 मार्च 2009
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)
- हवलदार जोजी के जे (सं. 15352472डब्ल्यू अब जेसी-378809वाई),
01 मार्च 2009
- हवलदार पदमा कुमारन नायर आर (सं. 14261850ए अब जेसी-378810एन), 01 मार्च 2009
- हवलदार सुनील कुमार तुदु (सं. 14251818एक्स अब जेसी-378811डब्ल्यू), 01 मार्च 2009
- हवलदार शिव कुमार (सं. 14268815ए अब जेसी-378812वाई),
01 मार्च 2009
- हवलदार जय प्रकाश (सं. 15350355एम अब जेसी-378813एफ),
01 मार्च 2009
- हवलदार चन्द्र प्रकाश (सं. 15350301एल अब जेसी-378865एक्स),
01 अप्रैल 2009
- हवलदार सुखविन्दर सिंह (सं. 14255083डब्ल्यू अब जेसी-378866ए),
01 अप्रैल 2009
- हवलदार जितेन्द्र कुमार (सं. 15352141पी अब जेसी-378867एच),
01 अप्रैल 2009
- हवलदार शिव प्रसन्ना राय (सं. 15350140एन अब जेसी-378868एल), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार मुकेश कुमार सिंह (सं. 15350326एक्स अब जेसी-378869एन), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार लक्ष्मण प्रसाद (सं. 15351398एन अब जेसी-378870एच),
03 अप्रैल 2009
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)
- हवलदार करप्पन टी ए (सं. 15351328पी अब जेसी-378871एल),
01 अप्रैल 2009

- हवलदार जाधव शिवाजी बी (सं. 15351543ए अब जेसी-378872एन), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार पूरन सिंह (सं. 14254162वाई अब जेसी-378873डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार शाजीमॉन बी (सं. 15350428एन अब जेसी-378874वाई), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार भानवर सिंह रावत (सं. 14250835एल अब जेसी-378875एफ), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार एस आर कृष्णा रेड्डी (सं. 14269298ए अब जेसी-378876के), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार राजपाल सिंह (सं. 14251312वाई अब जेसी-378877एम), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार देप्ती लाल (सं. 14267459वाई अब जेसी-378878पी), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार पुट्टन लाल (सं. 14254371डब्ल्यू अब जेसी-378879एक्स), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार बलदेव (सं. 14261288एफ अब जेसी-378880एम), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार अरधेन्दु नंदी (सं. 14253264एच अब जेसी-378881पी), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार सुनील कुमार (सं. 14255072एक्स अब जेसी-378882एक्स), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 14258002डब्ल्यू अब जेसी-378883ए), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार चंद्र भूषण (सं. 14258003वाई अब जेसी-378884एच), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार सुमेर सिंह (सं. 14258267ए अब जेसी-378885एल), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार भूपेश चन्द (सं. 14258177वाई अब जेसी-378886एन), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार जय नाथ पान्डे (सं. 14258362एम अब जेसी-378887डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार यू के कुंडू (सं. 14258433एच अब जेसी-378888वाई), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार अशोक कुमार सिंघा (सं. 14258431एक्स अब जेसी-378889एफ), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार तपन कुमार पाल (सं. 14258435एन अब जेसी-378890डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार एस एस साह (सं. 14257907एम अब जेसी-378891वाई), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार एन के मिश्रा (सं. 14260759एक्स अब जेसी-378892एफ), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार राज बिहारी (सं. 14261319डब्ल्यू अब जेसी-378893के), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार आर अरुणानाचलम (सं. 14267126एम अब जेसी-378894एम), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार नीलकांत पी डी साहू (सं. 15351450एल अब जेसी-378895पी), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार मोहम्मद सादिक (सं. 15351441के अब जेसी-378896एक्स), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार रसम सिंह (सं. 15351917एल अब जेसी-378897ए), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार सिबाई जोसेफ (सं. 15352735के अब जेसी-378898एच), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार राजेश कुमार (सं. 15352520एल अब जेसी-378899एल), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार ओम प्रकाश रजक (सं. 15350139वाई अब जेसी-378900पी), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार चितरंजन आचार्य (सं. 15352372एल अब जेसी-378901एक्स), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार वी ईश्वरा रेड्डी (सं. 14258695वाई अब जेसी-378902ए), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार चक्रा पाणी आचार्या (सं. 14258863एम अब जेसी-378903ए), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार दिनेश बाबू (सं. 14258653एम अब जेसी-378904एल), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार संजीव (सं. 14258175एन अब जेसी-378905एन), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार मुरलीधरन पी (सं. 14259060एम अब जेसी-378906डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार पाटिल विष्णु डी आर (सं. 15350899एफ अब जेसी-378907वाई), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार रवीन्द्र नाथ तिवारी (सं. 15351436वाई अब जेसी-378908एफ), 16 अप्रैल 2009
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)
- हवलदार बृज मोहन सिंह (सं. 14254281पी अब जेसी-378909के), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार रत विजय कुमार (सं. 14252099डब्ल्यू अब जेसी-378910वाई), 01 अप्रैल 2009

- हवलदार महाबीर (सं. 14261603वाई अब जेसी-378911एफ),
01 अप्रैल 2009
- हवलदार जादू नाथ साहू (सं. 14259516ए अब जेसी-378912के),
01 अप्रैल 2009
- हवलदार साजीमोन टी (सं. 15351330एम अब जेसी-378913एम),
02 अप्रैल 2009
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)
- हवलदार धुबा थापा (सं. 14265052के अब जेसी-378914पी),
01 अप्रैल 2009
- हवलदार अशोक कुमार (सं. 14269560एक्स अब जेसी-378915एक्स), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार राजीव कुमार सिंह (सं. 15353006एन अब जेसी-378926के), 01 मई 2009
- हवलदार पी मुण्डुदधि (सं. 14267369एक्स अब जेसी-378927एम),
01 मई 2009
- हवलदार सुग्रीव सिंह (सं. 14265104पी अब जेसी-378928पी),
05 मई 2009
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाएगी)
- हवलदार सोनावाले सोनिया बाबू (सं. 14263897के अब जेसी-378929एक्स), 01 मई 2009
- हवलदार राजेश कुमार (सं. 14266169पी अब जेसी-378930एन),
01 मई 2009
- हवलदार संतोष कुमार ई के (सं. 15352958एफ अब जेसी-378931पी), 01 मई 2009
- हवलदार वरके वी जे (सं. 15352975एफ अब जेसी-378932एक्स),
01 मई 2009
- हवलदार सरदार सिंह (सं. 15351535एफ अब जेसी-378949एल),
01 जून 2009
- हवलदार पी डी भारिया (सं. 14259019डब्ल्यू अब जेसी-378950ए),
14 जून 2009
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाएगी)
- हवलदार शिदरामप्पा अरामणी (सं. 14259271पी अब जेसी-378951एच), 01 जून 2009
- हवलदार पवन कुमार (सं. 14259534एच अब जेसी-378952एल),
01 जून 2009
- हवलदार इन्द्र बहादुर सिंह (सं. 15351253एच अब जेसी-378954डब्ल्यू), 01 जून 2009
- हवलदार परमेश्वर सिंह (सं. 15350968एम अब जेसी-378955वाई),
01 जून 2009
- हवलदार धनेद्रा प्रधान (सं. 15351998डब्ल्यू अब जेसी-378956एफ),
01 जून 2009
- हवलदार भेरा राम जाट (सं. 14268399एफ अब जेसी-378957के),
01 जून 2009
- हवलदार विनोद कुमार सिंह (सं. 14264650पी अब जेसी-378958एम), 01 जून 2009
- हवलदार दिवाकरण बी (सं. 14268743एफ अब जेसी-378959पी),
01 जून 2009
- हवलदार शंकर तिवारी (सं. 14257760एफ अब जेसी-378960के),
01 जून 2009
- (नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में
- हवलदार सुभाष कुमार (सं. 15352236पी अब जेसी-378598एफ),
01 दिसम्बर 2008
- हवलदार विष्णुमूर्ति एम (सं. 15353017ए अब जेसी-378599के),
31 दिसम्बर 2008
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी)
- हवलदार श्याम सिंह बोरा (सं. 15354412ए अब जेसी-378600एन),
01 दिसम्बर 2008
- हवलदार त्रिलोकी नाथ यादव (सं. 15354442एक्स अब जेसी-378601डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2008
- हवलदार सुभाष चन्द्र पान्डे (सं. 15354637एच अब जेसी-378710एच),
01 जनवरी 2009
- हवलदार रामवचन यादव (सं. 14263580पी अब जेसी-378720एम),
02 जनवरी 2009
- हवलदार जगदीश प्रसाद (सं. 14267299के अब जेसी-378721पी),
02 जनवरी 2009
- हवलदार यशवीर सिंह (सं. 15354538ए अब जेसी-378722एक्स),
02 जनवरी 2009
- हवलदार राम प्रसाद (सं. 15354515वाई अब जेसी-378723ए),
02 जनवरी 2009
- हवलदार राम मोहन त्यागी (सं. 15354929एल अब जेसी-378724एच), 02 जनवरी 2009
- हवलदार कामेश्वर रे (सं. 14255556के अब जेसी-378752पी),
01 फरवरी 2009
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

- हवलदार जयपाल (सं. 14268207वाई अब जेसी-378753एक्स),
01 फरवरी 2009
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
02 जनवरी 2009 से दी जायेगी)
- हवलदार जितेश चन्दा कर (सं. 15355090एक्स अब जेसी-379008के),
01 फरवरी 2009
- हवलदार कोराके भगवान यू (सं. 15355770एक्स अब जेसी-378754ए),
01 फरवरी 2009
- हवलदार शमशेर सिंह (सं. 15355377एन अब जेसी-378791एन),
01 मार्च 2009
- हवलदार खुशी राम (सं. 15355443एम अब जेसी-378792डब्ल्यू),
01 मार्च 2009
- हवलदार धरमवीर (सं. 15355422डब्ल्यू अब जेसी-378793वाई),
01 मार्च 2009
- हवलदार राजेन्द्र प्रसाद तिवारी (सं. 15354755डब्ल्यू अब जेसी-
378851एक्स), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार धरमवीर (सं. 15354438पी अब जेसी-378852ए), 01 अप्रैल
2009
- हवलदार अभंगे एस जे (सं. 15354772डब्ल्यू अब जेसी-378853एच),
01 अप्रैल 2009
- हवलदार दलबीर सिंह (सं. 14258669एक्स अब जेसी-378854एल),
01 अप्रैल 2009
- हवलदार बसंत कुमार मिश्रा (सं. 14259113ए अब जेसी-378855एन),
01 अप्रैल 2009
- हवलदार संत राम (सं. 15355500एच अब जेसी-378856डब्ल्यू),
02 अप्रैल 2009
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)
- हवलदार ए आर चौधुरी (सं. 15355628एन अब जेसी-378857वाई),
01 अप्रैल 2009
- हवलदार सुरेश चन्द्र (सं. 15350049एक्स अब जेसी-378858एफ),
01 अप्रैल 2009
- हवलदार भूकन सिंह (सं. 14267087वाई अब जेसी-378859के),
01 अप्रैल 2009
- हवलदार सतीश चन्द्र (सं. 15354701पी अब जेसी-378860वाई),
01 अप्रैल 2009
- हवलदार बलबीर सिंह (सं. 14254365एच अब जेसी-378861एफ),
01 अप्रैल 2009
- हवलदार राजेंद्र सिंह (सं. 14257538ए अब जेसी-378921एल),
01 मई 2009
- हवलदार आर के सिंह देओ (सं. 14258502एन अब जेसी-378922एन),
01 मई 2009
- हवलदार बलदेव सिंह (सं. 14261811एफ अब जेसी-378923डब्ल्यू),
01 मई 2009
- हवलदार चंद्र कुमार दत्ता (सं. 14262446एक्स अब जेसी-
378924वाई), 01 मई 2009
- हवलदार राजबीर सिंह (सं. 15354696पी अब जेसी-378925एफ),
01 मई 2009
- हवलदार के भास्कर रेड्डी (सं. 15356177एल अब जेसी-378943के),
06 जून 2009
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2009 से दी जायेगी)
- हवलदार एस अहमद बरभुईया (सं. 15355950ए अब जेसी-
378944एम), 01 जून 2009
- हवलदार अशोक कुमार (सं. 15356066एन अब जेसी-378945पी),
01 जून 2009
- हवलदार नीलम श्रीनिवासा राव (सं. 15356163एल अब
जेसी-378946एक्स), 01 जून 2009
- हवलदार उन्नीकृष्णन् बी (सं. 15357131पी अब जेसी-378947ए),
01 जून 2009
- हवलदार दिलीप कुमार एस (सं. 15357133ए अब जेसी-378948एच),
01 जून 2009
- हवलदार संतोष कुमार जी (सं. 15357134एच अब जेसी-378969वाई),
01 जुलाई 2009
- हवलदार एन भोजाराज (सं. 15358746एम अब जेसी-378970एन),
01 जुलाई 2009
- हवलदार वी रंगाशिवा अरुल एन (सं. 15358793के अब जेसी-
378971डब्ल्यू), 01 जुलाई 2009
- हवलदार देवीकर सुधाकर एस (सं. 15359047एन अब
जेसी-378972वाई), 01 जुलाई 2009
- हवलदार पी एस थंगामुथू (सं. 15359050एन अब जेसी-378973एफ),
01 जुलाई 2009
- हवलदार जी रवि (सं. 15359059एच अब जेसी-379059एक्स),
01 अगस्त 2009
- हवलदार जीवन सिंह (सं. 15359118के अब जेसी-379060एम),
01 अगस्त 2009
- हवलदार पवन कुमार सदोत्रा (सं. 15359124एक्स अब जेसी-
379061पी), 01 अगस्त 2009
- हवलदार गौरी शंकर शर्मा (सं. 15359102वाई अब जेसी-
379062एक्स), 01 अगस्त 2009

- हवलदार शेख इमामशाह (सं. 15356164एन अब जेसी-379079एल),
02 अगस्त 2009
- हवलदार ब्रज बिहारी सिंह (सं. 15358577डब्ल्यू अब जेसी-379080ए),
02 अगस्त 2009
- हवलदार सुशांता कुमार दास (सं. 15359190ए अब जेसी-379117डब्ल्यू), 02 अगस्त 2009
- (नायब सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में
- हवलदार रामा नंद (सं. 14260316डब्ल्यू अब जेसी-377448वाई),
01 अगस्त 2007
- हवलदार साहुकारा सुर्याराव (सं. 14261447एन अब जेसी-378816पी),
01 नवम्बर 2007
- हवलदार बलबीर सिंह (सं. 14262006के अब जेसी-377731एम),
04 जनवरी 2008
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)
- हवलदार गोपा कुमार सी (सं. 14260351वाई अब जेसी-377830पी),
01 फरवरी 2008
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)
- हवलदार कृष्ण पाल सिंह (सं. 14251253एक्स अब जेसी-377831एक्स), 01 जनवरी 2008
- हवलदार एस चन्द्रा (सं. 14261650के अब जेसी-377832ए),
01 जनवरी 2008
- हवलदार धरमवीर सिंह (सं. 14262002एन अब जेसी-377934डब्ल्यू),
01 फरवरी 2008
- हवलदार हवा सिंह (सं. 14262003डब्ल्यू अब जेसी-377935वाई),
01 फरवरी 2008
- हवलदार धन्ना राम गहलोत (सं. 14261769एन अब जेसी-377936एफ), 01 फरवरी 2008
- हवलदार गिरधारी लाल चहार (सं. 14262004वाई अब जेसी-378002डब्ल्यू), 01 मार्च 2008
- हवलदार जय सिंह (सं. 14261935डब्ल्यू अब जेसी-378087एक्स),
01 अप्रैल 2008
- हवलदार रमेश (सं. 14262036एफ अब जेसी-378088ए), 01 अप्रैल 2008
- हवलदार रनवीर सिंह (सं. 14261791वाई अब जेसी-378160एल),
01 मई 2008
- हवलदार जगदीश सिंह (सं. 14261793के अब जेसी-378161एन),
01 मई 2008
- हवलदार बाबु हसन (सं. 14261605एक्स अब जेसी-378312एफ),
02 मई 2008
- हवलदार कृष्ण कुमार (सं. 14261792एफ अब जेसी-378313के),
02 मई 2008
- हवलदार सुरेश कुमार (सं. 14261901एच अब जेसी-378236ए),
23 जून 2008
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
02 मई 2008 से दी जायेगी)
- हवलदार सत्यावान सिंह (सं. 14262042पी अब जेसी-378249एक्स),
01 जून 2008
- हवलदार अरबिंदा मजूमदार (सं. 14262121के अब जेसी-378250एम), 01 जून 2008
- हवलदार एस के हलदार (सं. 14262122एम अब जेसी-378251एक्स),
01 जून 2008
- हवलदार एस के पाल (सं. 14262124एक्स अब जेसी-378252एक्स),
01 जून 2008
- हवलदार संदीप तिवारी (सं. 14262126एच अब जेसी-378324डब्ल्यू),
18 जुलाई 2008
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)
- हवलदार देवादास एम (सं. 14262129डब्ल्यू अब जेसी-378385एन),
07 अगस्त 2008
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)
- हवलदार पवन कुमार (सं. 14261964एल अब जेसी-378386डब्ल्यू),
01 अगस्त 2008
- हवलदार राम कृष्ण (सं. 14261920एन अब जेसी-378509एक्स),
01 अक्टूबर 2008
- हवलदार करमजीत सिंह (सं. 14261970वाई अब जेसी-378510एम),
01 अक्टूबर 2008
- हवलदार चमन लाल (सं. 14262516एल अब जेसी-378511पी),
01 अक्टूबर 2008
- हवलदार ओम प्रकाश (सं. 14262095एन अब जेसी-378568के),
01 नवम्बर 2008
- हवलदार उमा शंकर (सं. 14262307एन अब जेसी-378569एम),
01 नवम्बर 2008
- हवलदार अब्दुल कलाम (सं. 14262309वाई अब जेसी-378570एफ),
01 नवम्बर 2008
- हवलदार सत्यावन सिंह (सं. 14262038एम अब जेसी-378638एक्स),
01 दिसम्बर 2008
- हवलदार सतपाल शर्मा (सं. 14261918डब्ल्यू अब जेसी-378639ए),
01 दिसम्बर 2008
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार सऔदान सिंह (सं. 14262485डब्ल्यू अब जेसी-378794एफ),
01 मार्च 2009

हवलदार बेनी सिंह (सं. 14262484एन अब जेसी-378795के),
01 मार्च 2009

हवलदार ओमवीर सिंह (सं. 14262715वाई अब जेसी-378862के),
01 अप्रैल 2009

हवलदार नवल किशोर (सं. 14262569के अब जेसी-378863एम),
01 अप्रैल 2009

हवलदार दयानंद (सं. 14262690एक्स अब जेसी-378864पी),
01 अप्रैल 2009

हवलदार श्याम लाल (सं. 14263077एक्स अब जेसी-378974एक्स),
02 जुलाई 2009

ए बी बागुर
अवर सचिव

थल सेना विभाग (एमजीओ) ईएमई कार्मिक

सं. 148, दिनांक 04 मार्च 2010--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं।

हवलदार से नायब सूबेदार आरमोर के रैंक में

परविन्दर सिंह (सं. 14567388एफ अब जेसी-763551एम), 26 मार्च
2009/08 मार्च 2009 *

शैलेन्द्र कुमार सिंह (सं. 14566655एल अब जेसी-763549पी),
03 अप्रैल 2009/08 मार्च 2009 *

एस आर पाण्डुरंग (सं. 14562422एम अब जेसी-763487ए),
03 मार्च 2009/08 फरवरी 2009 *

सुरेश चन्द्र (सं. 14567472एफ अब जेसी-763550के), 13 मार्च
2009/08 मार्च 2009 *

हवलदार से नायब सूबेदार डी डब्ल्यू के रैंक में

अमर सिंह यादव (सं. 14582841एल अब जेसी-763514वाई),
01 अप्रैल 2009

गिरिश चन्द्र मण्डल (सं. 14582966एच अब जेसी-763498एम),
04 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009 *

हंस राम गुर्जर (सं. 14582656एक्स अब जेसी-763511एल),
01 अप्रैल 2009

कुशलानंद बडोनी (सं. 14574807डब्ल्यू अब जेसी-763501एफ),
01 अप्रैल 2009

मान सिंह (सं. 14582458एम अब जेसी-763506ए), 07 अप्रैल
2009/01 अप्रैल 2009 *

प्रताप सिंह कृष्णा (सं. 14582549डब्ल्यू अब जेसी-763509एन),
01 अप्रैल 2009

राम सुमेर सिंह (सं. 14582188एच अब जेसी-763503एम), 01 अप्रैल
2009

राणा प्रताप भद्र (सं. 14567849ए अब जेसी-763317डब्ल्यू),
09 जनवरी 2009/07 दिसम्बर 2008 *

शिवो शंकर यादव (सं. 14582199पी अब जेसी-763504पी),
01 अप्रैल 2009

उदय कुमार पाण्डे (सं. 14577443ए अब जेसी-763502के), 01 अप्रैल
2009

हवलदार से नायब सूबेदार रीकवरी मैक के रैंक में

बाले राम (सं. 14557619वाई अब जेसी-763432डब्ल्यू), 09 फरवरी
2009/04 जनवरी 2009 *

हवलदार से नायब सूबेदार के टेक आरमोर के रैंक में

पूर्ण चन्द्र पात्रा (सं. 14615664वाई अब जेसी-763528वाई),
22 अप्रैल 2009/01 फरवरी 2009 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक ए व्हीकल के रैंक में

भूपाल सिंह (सं. 14609072वाई अब जेसी-763575डब्ल्यू), 23 मार्च
2009/01 मार्च 2009 *

विनोद कुमार (सं. 14620722एफ अब जेसी-763584एक्स), 17 मार्च
2009/01 मार्च 2009 *

बिश्वजीत दास (सं. 14618528एन अब जेसी-763579एम), 06 अप्रैल
2009/01 मार्च 2009 *

लीलाधर गीड (सं. 14617898एफ अब जेसी-763578के), 30 मार्च
2009/01 मार्च 2009 *

प्रतीश देबनाथ (सं. 14620499एच अब जेसी 763582एम), 01 अप्रैल
2009/01 मार्च 2009 *

राकेश कुमार सिंह (सं. 14620678एच अब जेसी-763583पी),
30 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *

सत्य नारायण पात्रा (सं. 14619498एन अब जेसी-763580एफ), 08
अप्रैल 2009/01 मार्च 2009 *

बी कृष्ण कुमार (सं. 14620488डब्ल्यू अब जेसी-763581के),
27 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *

बी सुन्दर राजन (सं. 14613908एच अब जेसी-763576वाई),
26 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *

वेकर बलीराम जीजारा (सं. 14618054एक्स अब जेसी-763543एन),
23 मार्च 2009/01 फरवरी 2009 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक बी व्हीकल के रैंक में

बसन्त कुमार मण्डल (सं. 14601747वाई अब जेसी-763558डब्ल्यू),
28 मार्च 2009/09 नवम्बर 2008 *

बीरेन्द्र कुमार सिंह (सं. 14610179ए अब जेसी-763566पी),
27 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *

बिरेन्द्र बहादुर सिंह (सं. 14610417एफ अब जेसी-763569एच),
26 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *

दिनकर करन्कल (सं. 14609345डब्ल्यू अब जेसी-763562वाई),
26 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *

गुरमेल चंद (सं. 14610826पी अब जेसी-763572एच), 06 अप्रैल
2009/01 मार्च 2009 *

हरशित सरकार (सं. 14610097एक्स अब जेसी-763564के),
01 अप्रैल 2009/01 मार्च 2009 *

के संजीव (सं. 14609005एन अब जेसी-763559वाई), 16 मार्च
2009/01 मार्च 2009 *

के वैथिलिनाम (सं. 14611270एच अब जेसी-763574एन), 30 मार्च
2009/01 मार्च 2009 *

कंडा सामी ए (सं. 14610291एम अब जेसी-763567एक्स), 02 अप्रैल
2009/01 मार्च 2009 *

कश्मीर सिंह (सं. 14610264एच अब जेसी-763565एम), 30 मार्च
2009/01 मार्च 2009 *

कृष्ण कुमार सिंह (सं. 14610353एफ अब जेसी-763568ए),
20 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *

एम जनार्थन पिल्लै (सं. 14597361वाई अब जेसी-763557एन),
25 मार्च 2009/01 फरवरी 2009 *

नल्बन्द अन्सार (सं. 14609400एफ अब जेसी-763563एफ),
21 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *

पूरन लाल खारकर (सं. 14612247एफ अब जेसी-763556एल),
21 मार्च 2009/01 फरवरी 2009 *

राधेश्याम प्रसाद (सं. 14610864एल अब जेसी-763573एल),
01 अप्रैल 2009/01 मार्च 2009 *

रणबीर सिंह (सं. 14609116एल अब जेसी-763560एन), 30 मार्च
2009/01 मार्च 2009 *

रूद्र राजू वी रामन्ना (सं. 14609726एक्स अब जेसी-763561डब्ल्यू),
23 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *

शिवपुरम वेन्कटेश्वरलु (सं. 14610722एन अब जेसी-763570एक्स),
28 मार्च 2009/01 मार्च 2009 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक कम्प्यूटर के रैंक में

इन्द्रमणी प्रसाद नपिट (सं. 14603908पी अब जेसी-763516के),
07 मार्च 2009/01 फरवरी 2009 *

उपेन्द्र प्रसाद (सं. 14602069डब्ल्यू अब जेसी-763515एफ), 25 मार्च
2009/01 फरवरी 2009 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक इलेक्ट के रैंक में

होम प्रकाश गंग बेर (सं. 14696817ए अब जेसी-763181एक्स),
28 अप्रैल 2009/05 अक्तूबर 2009 *

नरसिम्हा राज एस (सं. 14621554ए अब जेसी-763555एच), 01
अप्रैल 2009

ओम प्रकाश यादव (सं. 14620981के अब जेसी-763391एक्स),
01 अप्रैल 2009

तपन कुमार मजूमदार (सं. 14620815डब्ल्यू अब जेसी-763553एक्स),
04 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक गन के रैंक में

लोकेशा (सं. 14618323वाई अब जेसी-763525एल), 23 मार्च
2009/07 दिसम्बर 2008 *

प्रेम सिंह (सं. 14618408पी अब जेसी-763522एक्स), 18 मार्च
2009/07 दिसम्बर 2008 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक इन्स्ट्रुमेन्ट के रैंक में

महेन्द्र कुमार (सं. 14618447एन अब जेसी-763531वाई), 18 मार्च
2009/08 फरवरी 2009 *

उमेश कुमार शर्मा (सं. 14619742एच अब जेसी-763536एक्स),
18 अप्रैल 2009/08 फरवरी 2009 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक आर ओ के रैंक में

गोविन्दवल्लभ बगोली (सं. 14618914ए अब जेसी-762846डब्ल्यू),
16 अप्रैल 2009/01 सितम्बर 2008 *

*(पिछली तारीख से बरीयता दी जाती है।)

हवलदार से नायब सूबेदार आरमोर के रैंक में

अनवर सिंह (सं. 14561204एफ अब जेसी-763484एम), 12 मार्च
2009/08 फरवरी 2009 *

अशुतोष कुमार सिंह (सं. 14559651एम अब जेसी-763475एल),
13 मार्च 2009/08 फरवरी 2009 *

विद्या नंद ठाकुर (सं. 14564921ए अब जेसी-763489एल),
24 मार्च 2009/08 फरवरी 2009 *

इन्दुकांत मिश्रा (सं. 14567422डब्ल्यू अब जेसी-7634552पी),
14 मार्च 2009/08 मार्च 2009 *

तिरशपाल सिंह (सं. 14616851के अब जेसी-763482एफ), 13 मार्च
2009/08 फरवरी 2009 *

हवलदार से नायब सूबेदार डी डब्ल्यू के रैंक में

बासुदेव प्रधान (सं. 14582532एच अब जेसी-763508एल), 01 अप्रैल
2009

एम विशयानाथन (सं. 14581769एन अब जेसी-763499पी),
01 अप्रैल 2009

महिन्दर सिंह (सं. 14580809एक्स अब जेसी-763494डब्ल्यू),
21 मार्च 2009/01 नवम्बर 2008 *

नायर विजय कुमार राजप्पन (सं. 14582762डब्ल्यू अब जेसी-
763513डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

नंद राम कुमार (सं. 14582011पी अब जेसी-763497के), 12 मार्च
2009/01 मार्च 2009 *

पूरन सिंह (सं. 14582310एन अब जेसी-763505एक्स), 01 अप्रैल 2009

राम कनिष्क यादव (सं. 14582476पी अब जेसी-763507एच), 01 अप्रैल 2009

सुरेन्द्र सिंह (सं. 14582169एक्स अब जेसी-763500वाई), 01 अप्रैल 2009

ठाकुर प्रसाद (सं. 14581325के अब जेसी-763496एफ), 09 मार्च 2009/08 फरवरी 2009*

हवलदार से नायब सूबेदार फिटर (एफडी) के रैंक में

अरूण कुमार यादव (सं. 14560228वाई अब जेसी-763492एल), 23 मार्च 2009/01 फरवरी 2009*

हवलदार से नायब सूबेदार टी सी एम (लाईन) के रैंक में

शीश पाल (सं. 14571400पी अब जेसी-763548एम), 22 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

हवलदार से नायब सूबेदार टी सी एम (आर ओ) के रैंक में

भवानी सिंह राठोर (सं. 14565754एफ अब जेसी-763479एफ), 18 मार्च 2009/08 फरवरी 2009*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (एस ए) के रैंक में

प्रसाद पी आर (सं. 14612956डब्ल्यू अब जेसी-763527डब्ल्यू), 26 मार्च 2009/07 दिसम्बर 2008*

शिवाजी एच आर (सं. 14615706ए अब जेसी-763529एफ), 24 मार्च 2009/01 फरवरी 2009*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक ए व्हीकल के रैंक में

हर्ष नारायण (सं. 14620542वाई अब जेसी-763545वाई), 21 मार्च 2009/01 फरवरी 2009*

प्रसांत कुमार परीडा (सं. 14620665एल अब जेसी-763546एफ), 20 मार्च 2009/01 फरवरी 2009*

सत्य पाल सिंह (सं. 14619297पी अब जेसी-763544डब्ल्यू), 30 मार्च 2009/01 फरवरी 2009*

सोलान्के विनोद शेश राव (सं. 14617284वाई अब जेसी-763577एफ), 26 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक बी व्हीकल के रैंक में

किशोर चन्द्र साहू (सं. 14606522ए अब जेसी-763540ए), 24 मार्च 2009/04 जनवरी 2009*

अवधेश कुमार मिश्रा (सं. 14608236एक्स अब जेसी-763541एच), 07 अप्रैल 2009/04 जनवरी 2009*

गोरख नाथ पटेल (सं. 14605787एक्स अब जेसी-763539एल), 24 मार्च 2009/04 जनवरी 2009*

हीरालाल पटेल (सं. 14604086पी अब जेसी-763547के), 09 अप्रैल 2009/09 नवम्बर 2008*

सुरेन्द्र सिंह (सं. 14608890एन अब जेसी-763542एल), 03 फरवरी 2009/04 जनवरी 2009*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक कम्प्यूटर के रैंक में

निताई चंद्र घोष (सं. 14615681वाई अब जेसी-763519एक्स), 10 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

जगबीर सिंह कुशवाह (सं. 14618264एक्स अब जेसी-763520एम), 23 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

कृपाशंकर विश्वकर्मा (सं. 14604470डब्ल्यू अब जेसी-763517एम), 24 मार्च 2009/01 फरवरी 2009*

आर तमीजचेल्वम (सं. 14609893एन अब जेसी-763518पी), 21 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक गन के रैंक में

नरेन्द्र कुमार (सं. 14618402एन अब जेसी-763521पी), 17 मार्च 2009/07 दिसम्बर 2008*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक इन्स्ट्रुमेंट के रैंक में

केशेन्द्र यादव (सं. 14618622एक्स अब जेसी-763532एफ), 16 मार्च 2009/08 फरवरी 2009*

राजेन्द्र सिंह (सं. 14620269पी अब जेसी-763537ए), 16 मार्च 2009/08 फरवरी 2009*

संदीप कुमार राय (सं. 14618430ए अब जेसी-763530डब्ल्यू), 14 मार्च 2009/08 फरवरी 2009*

संजय कुमार सिलायच (सं. 14618791वाई अब जेसी-763534एम), 20 मार्च 2009/08 फरवरी 2009*

संतोष कुमार यादव (सं. 14619617वाई अब जेसी-763535पी), 14 मार्च 2009/08 फरवरी 2009*

विनोद कुमार (सं. 14620849के अब जेसी-763538एच), 16 मार्च 2009/08 फरवरी 2009*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (आरओ) के रैंक में

बीर बहादुर सिंह (सं. 14617371एम अब जेसी-763526एन), 23 मार्च 2009/01 अक्टूबर 2008*

हवलदार से नायब सूबेदार वी एम (एएफवी) के रैंक में

अनूप कुमार (सं. 14562734एच अब जेसी-763480डब्ल्यू), 20 मार्च 2009/08 फरवरी 2009*

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) के रैंक में

अन्नम वेंकट रामानजनेयुलू (सं. 14579910एल अब जेसी-763621ए), 18 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

अशोक कुमार (सं. 14580045के अब जेसी-763631के), 18 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

बृज किशोर सिन्हा (सं. 14578167पी अब जेसी-763601एम), 17 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

चंद्र भान (सं. 14579980के अब जेसी-763630एफ), 19 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

दर्शन लाल (सं. 14579725एक्स अब जेसी-763617एक्स),
23 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

घनश्याम डांगी (सं. 14579895एफ अब जेसी-763625डब्ल्यू),
19 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

गोपाल कृष्णन एस (सं. 14578209डब्ल्यू अब जेसी-763602पी),
17 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

गुरुदेव सिंह दण्डवाल (सं. 14580057वाई अब जेसी-763632एम),
20 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

हरकरण सिंह (सं. 14579875एन अब जेसी-763623एल),
23 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

जगमाल सिंह (सं. 14578525पी अब जेसी-763603एक्स),
17 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

जान थापा (सं. 14579614ए अब जेसी-763615एम), 21 मार्च
2009/01 मार्च 2009*

जोगेन्द्र कुमार तिवारी (सं. 14578921एल अब जेसी-763607एन),
18 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

एम पलानी (सं. 14580009वाई अब जेसी-763629एम), 18 मार्च
2009/01 मार्च 2009*

मोहम्मद नसीब अली (सं. 14579609पी अब जेसी-763614के),
25 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

मोती लाल (सं. 14578130एन अब जेसी-763600के), 10 अप्रैल
2009/01 मार्च 2009*

नवीन सिंह महारा (सं. 14579968एच अब जेसी-763628के),
18 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

निखिल बिस्वास (सं. 14579603एन अब जेसी-763612वाई),
18 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

निताई चंद्र बनर्जी (सं. 14578919एन अब जेसी-763605एच),
06 अप्रैल 2009/01 मार्च 2009*

पटेल हसमुख भाई जे बी (सं. 14578978ए अब जेसी-763609वाई),
27 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

प्रदीप कुमार झा (सं. 14579336एक्स अब जेसी-763611डब्ल्यू),
18 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

प्रमोद कुमार पसयात (सं. 14579333के अब जेसी-763608डब्ल्यू),
21 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

राजेश कुमार (सं. 14578808डब्ल्यू अब जेसी-763604ए),
23 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

राजेश कुमार राय (सं. 14578920एच अब जेसी-763606एल),
18 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

साजी जे एस ज्ञानदास (सं. 14579642एम अब जेसी-763616पी),
23 अप्रैल 2009/01 मार्च 2009*

सतीश चंद्र सैनी (सं. 14579885एक्स अब जेसी-763624एन),
18 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

सुखदेव सिंह (सं. 14579666डब्ल्यू अब जेसी-763620एक्स),
19 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

सुरेश बाबू (सं. 14579974डब्ल्यू अब जेसी-763626वाई),
20 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

सुरेश कुमार (सं. 14579750डब्ल्यू अब जेसी-763619एच),
30 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

सुरजीत सिंह (सं. 14579749एफ अब जेसी-763618ए), 19 मार्च
2009/01 मार्च 2009*

स्वप्न कुमार मण्डल (सं. 14579604डब्ल्यू अब जेसी-763613एफ),
17 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

त्रिभुवन नन्जी परमार (सं. 14578981ए अब जेसी-763610एन),
19 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

वीर बहादुर सिंह (सं. 14580774एम अब जेसी-763633पी),
25 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

विजय सिंह (सं. 14579912डब्ल्यू अब जेसी-763622एन),
20 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

यादव राकेश बाबू विद्याराम (सं. 14580011डब्ल्यू अब
जेसी-763627एफ), 18 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

हवलदार से नायब सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में
अनिल कुमार विद्यार्थी (सं. 14600142एल अब जेसी-763593वाई),
05 अप्रैल 2009/01 मार्च 2009*

बकुल सरकार (सं. 14600378ए अब जेसी-763587एल), 27 मार्च
2009/01 मार्च 2009*

जी कथिरावण (सं. 14600722ए अब जेसी-763588एन), 18 मार्च
2009/01 मार्च 2009*

जी महालिंगम (सं. 14600857एफ अब जेसी-763590एल),
30 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

जयवेल टी (सं. 14600864एक्स अब जेसी-763592डब्ल्यू),
23 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

एल मुत्तूरामलिंगम (सं. 14600859एम अब जेसी-763591एन),
20 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

नरेन्द्र सिंह (सं. 14601031ए अब जेसी-763599ए), 01 अप्रैल
2009

नटराजन पी जी (सं. 14600856वाई अब जेसी-763589डब्ल्यू),
23 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

ओम प्रकाश (सं. 14600990के अब जेसी-763596एम), 25 मार्च
2009/01 मार्च 2009*

प्रदीप कुमार राय (सं. 14600376पी अब जेसी-763585ए),
23 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

आर देवेन्द्रन (सं. 14600871एन अब जेसी-763594एफ),
23 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

रमेश चंद (सं. 14600993एक्स अब जेसी-763597पी), 17 मार्च
2009/01 मार्च 2009*

संतोश कुमार अधिकारी (सं. 14600377एक्स अब जेसी-763586एच), 26 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

सुब्रमनी के (सं. 14600872डब्ल्यू अब जेसी-763595के), 19 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

विनोद कुमार उपाध्याय (सं. 14601007के अब जेसी-763598एक्स), 23 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

हवलदार से नायब सूबेदार वी एम (एफवी) के रैंक में
सुशान्त कुमार दास (सं. 14563993एक्स अब जेसी-763491एच),
19 मार्च 2009/01 मार्च 2009*

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

नं कि कश्मीरा
अपर सचिव

वायु शाखा

सं. 149, दिनांक 5 मार्च 2010--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं:--

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

एयर वाइस मार्शल के मूल रैंक में:--

(क) पी के श्रीवास्तव (14160) वै.ई.(वै), 08 जून 2009

(ख) वी के नारंग (14326) वै.ई.(वै), 01 जुलाई 2009

ए के सिंह

उप निदेशक कार्मिक अधिकारी-2(बी)

सेना शाखा

सं. 150, दिनांक 5 मार्च 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 05 दिसम्बर 2008 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

गिरिजा नंदन त्रिपाठी (एमएस-15014एक्स), (एमआर-08782डब्ल्यू), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 02 सितम्बर 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

स्वीन शिवरैन (एमएस-15011के), (एमआर-08892एल), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 जून 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

लेफ्टिनेन्ट के पद पर

अमित किशोर (एमएस-14738एच), (एमआर-08891एच), एएमसी, 27 फरवरी 2004

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30 अप्रैल 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

यश पांडे

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक ससेचिसे (मा सं)

(वित्त प्रभाग)

सं. 151, दिनांक 5 मार्च 2010--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में श्री शिंगारा सिंह, निदेशक को उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 30 नवम्बर 2009 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

आर सी मीना

सहायक वित्तीय सलाहकार (स्था)

राष्ट्रीय कैडेट कोर

शुद्धि-पत्र

सं. 152, दिनांक 8 मार्च 2010--रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 17 अक्टूबर 2009 को प्रकाशित की गई राजपत्रित अधिसूचना के क्रम सं. 9 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

के बदले

एन सी सी नं. रैंक, नाम तथा निदेशालय	अवैतनिक रैंक	अवैतनिक रैंक प्रदान करने की तारीख
एनसीसीजे/61721/चीफ ऑफिसर, पी गंगाधर एनसीसी निदेशालय, उड़िसा	मेजर	31.03.2007

पढ़ा जाए

एन सी सी नं. रैंक, नाम तथा निदेशालय	अवैतनिक रैंक	अवैतनिक रैंक प्रदान करने की तारीख
एनसीसीजे/61721/चीफ ऑफिसर, पी गंगाधर एनसीसी निदेशालय, उड़िसा	लेफ्टिनेन्ट	31.03.2007

एस जे डेविड

कर्नल

स्था. उप महानिदेशक (एम एस)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 20th March 2010

(FINANCE DIVISION)

No. 136, dated 1st March 2010—The President is pleased to appoint Shri O. P. Chauhan, Sr. PPS Ministry of Defence (Finance) as Principal Staff Officer in CSSS in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/-) with effect from 21 Nov 2009.

R C MEENA
Asstt Financial Adviser (Estt)

ARMY BRANCH

No. 137, dated 1st March 2010—The President is pleased to make the following appointments :—

TERRITORIAL ARMY
TERRITORIAL COMMISSION

SS-37555Y Ex Major Jagmeet Singh now TA-42692 Lieutenant Jagmeet Singh has been granted commission as an officer in the Territorial Army (Infantry) on 16 Aug 2007 in the rank of Lieutenant under the provision given in Appendix VIII of TA Act Rule 1948. He is also granted eight years and thirty days of service (05 Sep 1998 to 05 Oct 2006) ante date seniority with effect from 16 Jul 1999 in the rank of Lieutenant for his former service in the Regular Army. By virtue of his ante date seniority, he is promoted as Captain with effect from 16 Dec 2004 and Major with effect from 16 Jul 2007 with notional seniority for pay and promotion in the rank of the Captain with effect from 16 Dec 2004 and Major with effect from 16 Jul 2007 under the provisions of Para 25 (a) & 38 (a) of TA Act 1948 (Revise Edition 1976) as amended vide Government of India, Ministry of Defence letter No. 18 (1) 2006/D (GS-1) dated 18 Apr 06 consequent to recommendation of AVSC Committee report for increments of pay and promotion purpose.

JAI RAJ
Under Secy

No. 138, dated 1st March 2010—The President is pleased to make the following appointments :—

To be appointed as following :—

14312364 Shri ML Karakwar, CGO (Adm Officer)
School of Arty wef 01 May 2009

A V BAGUR
Under Secy

ARMY BRANCH

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL
ENGINEERING

No. 139, dated 1st March 2010—The President is pleased to appoint Shri Ritesh Sarothiya to the grade of Assistant

Executive Engineer with effect from 27 Jul 2009 (Forenoon) in the Corps of EME under Ministry of Defence.

He will remain on probation for a period of two years.

NK KASHMIRA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 140, dated 2nd March 2010—The President is pleased to confirm the undermentioned officers in the Short Service Commission on successful completion of probationary period of one year in terms of AI 15/79 as amended.

REGULAR ARMY
(ARMY DENTAL CORPS)
SHORT SERVICE COMMISSION
CONFIRMATION

Capt Bharat Bhan (DS-12259H), 30 Dec 2007

Capt Sandeep Mehta (DS-12263L), 31 Dec 2007

Capt (Ms) Parminder Kaur (DS-12269M), 04 Jan 2008

Capt (Ms) Salomi Thomas (DS-12281N), 14 Jan 2008

Capt (Ms) Mitika Singh Phull (DS-12294L), 20 Jan 2008

Capt (Ms) Suprita Chandel (DS-12301W), 10 Mar 2008

DK TANEJA
Maj Gen
Addl DGDS

ARMY BRANCH

No. 141, dated 2nd March 2010—The President is pleased to make the following promotion (PC) under AI 37/78 as amended :—

REGULAR ARMY
(ARMY DENTAL CORPS)
PERMANENT COMMISSION

Acting (Paid) Surg Capt to be Sub Surg Capt
VS Parmar (DR-10413X) (79036A), 14 Feb 2009

DK TANEJA
Maj Gen
Addl DGDS

ARMY BRANCH

No. 142, dated 2nd March 2010—The President is pleased to make the promotion of undermentioned AMC officers with effect from the date as indicated against their names :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Colonel (Time Scale)

Lt Col RK Bhatia (MR-6185H), 06 Mar 2009

Lt Col SS Kushwaha (MR-5970M), 27 May 2009

Lt Col Ashish Saksena (MR-5027F), 01 Jun 2009

Lt Col A Malhotra (MR-5028K), 01 Jun 2009
 Lt Col (Mrs) K Viswanathan (MR-6482W), 04 Jun 2009
 Lt Col S Mishra (MR-6397N), 18 Jun 2009

Wg Cdr to Gp Capt (Time Scale)

Wg Cdr Aditya Bhargava (18184K) (MR-05295L), 19 Dec 2007

Wg Cdr U Khapali (18350N) (MR-5969X), 17 Apr 2009

Wg Cdr Harsh Vardhan (17592H) (MR-5018A), 01 Jun 2009

Surg Cdr to Surg Capt (Time Scale)

Surg Cdr MC Nagraj (75335) (MR-5071L), 12 Sep 2008

Surg Cdr V Mahendra (75303) (MR-4791A), 06 Jun 2008

Surg Cdr SC Patra (MR-4339L), 16 Dec 2004

Surg Cdr Rebu Koshi (MR-5612F), 06 Dec 2007

Surg Cdr HS Nagar (MR-5585H), 28 Mar 2009

YASH PANDE

Brig

Dy DGAFMS (HR)

No. 143, dated 3rd March 2010—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS officers with effect from the date(s) mentioned against the each name :—

REGULAR ARMY
 (PERMANENT COMMISSION)

Lt Col (TS) to Lt Col (Select)

Rank, Name, Pers Number & Date of Promotion

Lt Col Rosaly Mathew (NR-16833W), 20 Dec 2004

Lt Col Valsala (NR-17121X), 04 Jun 2007

Lt Col Moly P (NR-17359X), 03 Jul 2008

T PADMINI

Maj Gen

Addl DGMNS

ARMY BRANCH

No. 144, dated 3rd March 2010—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officer with effect from the date mentioned against him/her :—

REGULAR ARMY
 (PERMANENT COMMISSION)

To be Major

Amit Kishore (MS-14738H) (MR-08891H), AMC, 30 Dec 2008

Girija Nandan Tripathy (MS-15014X) (MR-08782W), AMC, 12 Apr 2009

Sween Sheoran (MS-15011-K) (MR-08892-L), AMC, 12 Apr 2009

To be Capt

Abhinav Dixit (MR-08656-K), AMC, 01 Feb 2009

Amit Kishore (MS-14738-H) (MR-08891-H), AMC, 30 Dec 2004

On Completion of Internship

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Feb 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

YASH PANDE

Brig

Dy DGAFMS (HR)

NATIONAL CADET CORPS

No. 145, dated 3rd Mar 2010—The President is pleased to make the following promotion from the dates mentioned below against the name of the officers. Relative seniority in the rank will be as indicated against officer's name below :—

NCC WHOLE TIME LADY OFFICERS
 PERMANENT COMMISSIONED

Captain to Major

No., Rank and name of the Offr & Date of Promotion

NCC/GD/PC-12502 Capt PS Latiffa Banu, 13 May 2009

NCC/GD/PC-12503 Capt S Chandra, 07 May 2009

NCC/GD/PC-12504 Capt KK Maheshwari, 07 May 2009

S J DAVID

Col

Director (MS)

ARMY BRANCH

No. 146, dated 4th Mar 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
 PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

IC No., Name, Arms/Services

IC-66179 Raj Singh, AC

IC-66181 Rakesh Yadav, Inf

IC-66182 Syed Mohammed Arif, ASC

IC-66184 Tejendra Singh Shaktawat, Inf	IC-66237 Manmeet Singh Lakha, Mech Inf
IC-66185 Mahesh Bellad, Inf	IC-66238 Anantha Raju R P, Inf
IC-66187 Saurabh Diddi, Inf	IC-66239 Bhartendu Rawat, Inf
IC-66188 Bhagat Akshay Suresh, Inf	IC-66241 Jaivardhan Singh, Inf
IC-66189 Harsh Vardhan Singh, Inf	IC-66242 Ravish Kumar Singh, Arty
IC-66192 Rohit Kumar Ashok Patil, Inf	IC-66243 Abhay Bisht, Mech Inf
IC-66193 Biren Parangden, Inf	IC-66245 Amit Dwivedi, Inf
IC-66195 Himmat Singh, AC	IC-66248 Kunwar Saurabh Singh Bisht, Inf
IC-66198 Ravi Kant, Arty	IC-66249 Gopal Mehra, Inf
IC-66199 Barun Singha, Arty	IC-66250 Bickram Singh Sidhu, AOC
IC-66200 Mirza Zahid Baig, Inf	IC-66251 Naresh Kumar Rana Rajput, Arty
IC-66201 Sunil Yadav, Inf	IC-66254 Shubhashish Mazumdar, Arty
IC-66202 Lokhande Parag Krishnarao, Arty	IC-66256 Manish Singh, Arty
IC-66203 Jithesh B, Inf	IC-66257 Anil Bora, Inf
IC-66204 Ranade Charudatta Jayant, Inf	IC-66258 Jaipal Singh, Inf
IC-66205 Vijayendra Pratap Singh, Inf	IC-66260 Shobhit Dogra, Inf
IC-66207 Satish Chandra Lakhera, Inf	IC-66263 Sahil Thakur, Inf
IC-66209 Damle Abhijeet Rajanikant, Inf	IC-66264 Gurvinder Singh, Inf
IC-66210 Rohit S Shekhawat, Inf	IC-66265 Harjit Singh, Arty
IC-66211 Puneet Malhotra, Inf	IC-66266 Arun K, Inf
IC-66212 Mohan Rao, Inf	IC-66268 Manish Singh, Inf
IC-66213 Rohit Sharma, Inf	IC-66269 Varun Kumar, Arty
IC-66215 Kapil Rai, Inf	IC-66271 Bhawani Singh Ranawat, Mech Inf
IC-66216 Rahesh B Kurup, Inf	IC-66272 Naresh Chandra Tewari, Inf
IC-66219 Vijayant Bisht, Inf	IC-66273 Ateet Hansen, Inf
IC-66220 Praveen, AOC	IC-66274 Vikas Dubey, Inf
IC-66221 Nitin Rana, Inf	IC-66280 Siddharth Saxena, AC
IC-66222 Aman Amrik Singh, ASC	IC-66281 Cianto K, Arty
IC-66223 Sreenivasulu K, Inf	IC-66282 Dhyanchand Rajkumar, Arty
IC-66224 Kazi Nihal Isamuddin, Mech Inf	IC-66284 Sandeep Kumar Singh, Inf
IC-66225 N Toshi, Inf	IC-66288 Himmat Singh Sangha, Inf
IC-66226 Chakkanatu Shibu John, Inf	IC-66291 Vikrant Kumar Zalte, Inf
IC-66227 Vivek H Sahay, Arty	IC-66293 Anil Pun, Mech Inf
IC-66229 Manoj Kumar Tiwari, Arty	IC-66295 Parichay Arora, AC
IC-66230 Raghavender Singh, ASC	IC-66296 Trivender Singh Rathore, Inf
IC-66231 Jitender Singh Shakawat, Inf	IC-66297 Somenath Roy, Arty
IC-66232 Ghatge Ramesh Udaysinh, Inf	IC-66300 Pukhrambam Herojit Singh, Inf
IC-66233 Patil Arjun Suresh, AC	IC-66302 Rajat Sharma, Arty
IC-66234 Nikhil Wagh, Inf	IC-66304 Atom Kiran Kumar Singh, Inf
IC-66235 Shailendra Singh, Inf	
IC-66236 Ranjan Kr Jha, Arty	

IC-66305 Irengbam Jayantakumar Singh, Arty
 IC-66306 Maneesh Dadheech, AC
 IC-66308 Abhishek Prakash, AAD
 IC-66310 Abhishek Singhal, Inf
 IC-66311 Bharat Singh Chauhan, AC
 IC-66312 Maneesh Sirohi, Inf
 IC-66314 Sunandan Nandy, Arty
 IC-66316 Godbole Ashish Vishwanath, Arty

—17 Apr 2007

JASWANT SINGH
 Jt Dir
 MS-8C

No. 147, dated 4th March 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
 REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Bagade Gajanan Hari Bhau (JC-261843N), 02 Mar 2009/01 Feb 2009*

Sub Onkar Singh Rathore (JC-260344M), 01 Mar 2009

Sub Balbir Singh Yadav (JC-259875X), 02 Mar 2009/02 Mar 2009*

Sub K. Devrindran (JC-261639P), 09 May 2009/01 Apr 2009*

Sub Laxminarain (JC-261663L), 25 May 2009/01 Apr 2009*

Sub Ishwar Dayal Sharma (JC-262118N), 01 May 2009

Sub Ashok Kumar Mishra (JC-261272A), 02 Jun 2009/01 Jun 2009*

Sub Dalui Nagoji Rao (JC-264089H), 01 Jun 2009

Sub Ranbir Singh (JC-263543L), 01 Jun 2009

Sub Parvinder Singh (JC-260323W), 01 Mar 2009

Sub Manjit Singh (JC-263388P), 03 Jun 2009/01 Jun 2009*

Sub G. Makunthu (JC-264629W), 01 Jun 2009

Sub Ramesh Chandra Singh (JC-263034M), 05 Jun 2009/01 Jun 2009*

Sub Jagvir Singh (JC-261689A), 08 May 2009/01 Apr 2009*

Sub Gurshinder Singh (JC-262983M), 02 Mar 2009/01 Mar 2009*

Sub Rajendra Bahadur Singh (JC-264010P), 05 Jun 2009/01 May 2009*

Sub Sunil Kumar MK (JC-263932L), 07 May 2009/01 May 2009*

Sub Surendra Singh (JC-261071F), 01 Jul 2009/01 Mar 2009*

Sub Premrajan VK (JC-261000A), 01 Jun 2009

Sub Ouseph AP (JC-261675A), 20 Jul 2009/01 Apr 2009*

Sub Puran Chandra Kabowal (JC-260939K), 01 Jun 2009

Sub Rajendra Prasad (JC-260836L), 08 Jun 2009/01 Jun 2009*

Sub Appu S (JC-263727K), 05 May 2009/01 May 2009*

Sub Nikam Mahadeo Shrirang (JC-262787M), 08 Jun 2009/01 Apr 2009*

Sub Kuria Kose Isac (JC-262827H), 11 May 2009/01 Apr 2009*

Sub Hari Bandhu Pradhan (JC-264728Y), 03 Aug 2009/01 Jul 2009*

Sub Mani Balan P (JC-261581H), 01 Jun 2009

Sub Babasaheb Vamanrao Wagh (JC-263140L), 22 Jun 2009/01 Jun 2009*

Sub Jogender Singh (JC-262988L), 03 Aug 2009/01 Aug 2009*

Sub Ashok Motar (JC-261554Y), 03 Aug 2009/01 Aug 2009*

Sub Bir Bahadur Thapa (JC-260482N), 01 Aug 2009

Sub Sharma Kanu Bhai Ambalal (JC-263237W), 01 Apr 2009

Sub Gurdev Singh (JC-263239F), 21 Jul 2009/01 Jun 2009*

To be Substantive Subedar Maj (AIG)

Sub Subedar Singh Yadav (JC-258921P), 24 Nov 2008/01 Dec 2007*

Sub Kabal Singh (JC-258928Y), 09 Jun 2009/01 Jun 2009*

To be Substantive Subedar (AIG)

Nb Sub Bramhanand Dubey (JC-269447M), 01 Jun 2009

Nb Sub Indrajit Singh (JC-269197W), 09 Jun 2009/01 Jun 2009*

Nb Sub Gural Singh Mehta (JC-268836A), 02 Mar 2009/01 Mar 2009*

Nb Sub Kadam Rajendra Maruti (JC-269444Y), 09 May 2009/01 May 2009*

Nb Sub Divakara MJ (JC-270416Y), 01 Jun 2009

Nb Sub Netrapal Singh Chauhan (JC-269446K), 01 Jun 2009

Nb Sub Rajendra Prasad Tiwari (JC-269448P), 01 Jun 2009

Nb Sub Ramawatar Meena (JC-268835X), 01 Feb 2009

Nb Sub Sanjib Kumar (JC-269198Y), 01 May 2009

Nb Sub Jai Pal (JC-269452X), 01 Jul 2009
 Nb Sub Naresh Kumar Yadav (JC-269191P), 10 Apr 2009/
 01 Apr 2009*
 Nb Sub Upendra Kumar Sharma (JC-268839N), 05 May
 2009/01 Apr 2009*
 Nb Sub Kamaljit Singh (JC-269450M), 01 Jun 2009
 Nb Sub Baljit Singh (JC-269199F), 01 Jun 2009
 Nb Sub Rajesh Kumar Singh (JC-269200L), 08 Jul 2009/
 01 Jul 2009*
 Nb Sub Ani S (JC-269454H), 01 Jul 2009
 Nb Sub Pyare Lal Yadav (JC-270071H), 01 Jul 2009
 Nb Sub Ganana Sammandan E (JC-269196N), 01 Jun 2009
 Nb Sub Avula Sreeniwasa (JC-265913Y), 06 Aug 2009/
 19 Jun 2009*
 Nb Sub Shanker Singh (JC-265616L), 08 Aug 2009/19 Jun
 2009*
 Nb Sub Bijender (JC-266083A), 01 Aug 2009/19 Jun 2009*
 Nb Sub K Damodaran (JC-265914F), 03 Aug 2009/19 Jun
 2009*
 Nb Sub Mota Ram (JC-265618W), 05 Aug 2009/19 Jun
 2009*
 Nb Sub Baljinder Singh Pandher (JC-265615H), 01 Aug
 2009/19 Jun 2009*
 Nb Sub Dinkar Chaudhary (JC-269941H), 01 Aug 2009
 Nb Sub Ranjeet Singh (JC-269201N), 01 Aug 2009
 Nb Sub VV Rathnakaran (JC-269943N), 03 Aug 2009/
 01 Aug 2009*
 Nb Sub Jai Hind Singh (JC-265909W), 05 Aug 2009/19
 Jun 2009*
 Nb Sub Gurdeep Singh (JC-266084H), 03 Aug 2009/19 Jun
 2009*

To be Subs Sub Maj (TIFC)

Sub Surjit Singh (JC-260053M), 22 Jul 2009/01 Jul 2008*
 Sub Narendar Singh (JC-261449H), 03 Jul 2009/01 Jul
 2009*

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Bute Vijay Kumar Waman Rao (JC-267471K),
 21 Jul 2009/10 Jul 2008*
 Nb Sub Jose VO (JC-269582A), 11 Oct 2008/01 Aug 2008*
 Nb Sub Sushil Kumar Singh (JC-270498M), 12 Sep 2009/
 02 Aug 2008*
 Nb Sub Hans Raj (JC-268212N), 11 Aug 2009/01 Oct
 2008*
 Nb Sub Lakhan Lal (JC-270095M), 08 Jul 2009/01 Dec
 2008*

Nb Sub Kamleshwar Prasad (JC-268915P), 07 Jan 2009/
 01 Jan 2009*
 Nb Sub Balwinder Singh (JC-268184M), 22 Apr 2009/
 05 Jan 2009*
 Nb Sub Balakrishnan B (JC-270092Y), 05 Jun 2009/01 Feb
 2009*
 Nb Sub Satnam Singh (JC-269329Y), 13 Mar 2009/
 01 Mar 2009*
 Nb Sub Susant Kumar Kunar (JC-269698W), 02 Mar 2009/
 01 Mar 2009*
 Nb Sub Amar Singh (JC-269024Y), 27 Apr 2009/05 Mar
 2009*
 Nb Sub Chidananda Murthy (JC-264661L), 07 Jun 2009/
 01 Apr 2009*
 Nb Sub Kuldip Singh (JC-267348L), 02 Jul 2009/01 Apr
 2009*
 Nb Sub Shiv Singh (JC-270022A), 02 Apr 2009/01 Apr
 2009*
 Nb Sub Sri Bhure Singh Narwariya (JC-269700H), 01 Apr
 2009
 Nb Sub B K Soma Sekhara Reddy (JC-269536L), 06 May
 2009/01 Apr 2009*
 Nb Sub Parthasarathi N (JC-270819Y), 16 Jun 2009/
 01 Apr 2009*
 Nb Sub A Vijayan (JC-263889P), 10 Jun 2009/01 May
 2009*
 Nb Sub Rajpal Singh Bhadari (JC-262911H), 17 Jul 2009/
 01 May 2009*
 Nb Sub Rai Karolin (JC-264399N), 12 May 2009/01 May
 2009*
 Nb Sub Vinod Kumar (JC-266717L), 28 Aug 2009/01 May
 2009*
 Nb Sub Mahabir (JC-266571H), 01 Jun 2009
 Nb Sub Karnail Singh (JC-268444M), 12 Jun 2009/01 Jun
 2009*
 Nb Sub Krishan Dev (JC-262584H), 01 Jul 2009/26 Jun
 2009*
 Nb Sub Umesh Chandra Kar (JC-270230P), 27 Aug 2009/
 01 Aug 2009*
 Nb Sub Birjendra Singh Rawat (JC-267816A), 08 Aug
 2009/01 Aug 2009*
 Nb Sub Ramesh Chandra Pandey (JC-268414P), 28 Jul
 2009/01 Aug 2008*
 Nb Sub Amarjit Singh (JC-268590M), 01 Aug 2009
 Nb Sub Ananda KD (JC-269494K), 01 Aug 2009

Nb Sub Om Parkash (JC-269784F), 20 Aug 2009/01 Aug 2009*

Nb Sub Narpat Singh (JC-269595X), 06 Aug 2009/01 Aug 2009*

Nb Sub Amar Nath Singh (JC-269681H), 01 Aug 2009

Nb Sub Wazir Singh (JC-269600X), 02 Aug 2009/01 Aug 2009*

Nb Sub Surinder Kumar (JC-271239W), 01 Sep 2009/01 Aug 2009*

Nb Sub Ratneshwar Saikia (JC-271453Y), 01 Sep 2009/01 Aug 2009*

*(Gtd seniority wef)

CORPS OF SIGNALS

To be Nb Sub (GD)

Hav Shakti Singh (No. 14267503X now JC-378739L), 01 Dec 2007

Hav Surybhan Yadav (No. 14253104H now JC-378336L), 09 Jul 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Dharambir (No. 14262509P now JC-378337N), 01 Jul 2008

Hav Dibyendu Sarkar (No. 14264312X now JC-378338W), 21 Jul 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav KB Mahapatra (No. 14259519N now JC-378339Y), 01 Jul 2008

Hav Kartar Singh (No. 14253156Y now JC-378340N), 01 Jul 2008

Hav Girraj Singh (No. 14253610N now JC-378341W), 01 Jul 2008

Hav Ram Abhilash Singh (No. 14253683A now JC-378342Y), 07 Jul 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Pan Singh Karayat (No. 14249877L now JC-378343F), 01 Jul 2008

Hav Dharamvir (No. 14253719N now JC-378344K), 01 Jul 2008

Hav Ravindra Singh (No. 14253507H now JC-378345M), 05 Jul 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav M Baleswaraiiah (No. 14257457W now JC-378346P), 01 Jul 2008

Hav Kameshwar Bharti (No. 14249898F now JC-378347X), 01 Jul 2008

Hav Tarsem Singh (No. 14250132K now JC-378348A), 01 Jul 2008

Hav Lakshmi Kanta Pal (No. 14250939M now JC-378349H), 01 Jul 2008

Hav Ramdin (No. 14253947W now JC-378350X), 14 Jul 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Ashok Kumar (No. 14254249A now JC-378351A), 01 Jul 2008

Hav Ram Gyan Yadav (No. 14262285A now JC-378352H), 04 Jul 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Jai Krishan (No. 14252525Y now JC-378353L), 01 Jul 2008

Hav Surendra Ram (No. 14264582M now JC-378354N), 14 Jul 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav PD Benake (No. 14250555X now JC-378355W), 01 Jul 2008

Hav Ram Priti Singh (No. 14251163W now JC-378356Y), 01 Jul 2008

Hav Rama Shanker Tiwari (No. 14251734K now JC-378357F), 01 Jul 2008

Hav Awadesh Prasad (No. 14255568Y now JC-378389K), 01 Aug 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Mulayam Singh (No. 14246104A now JC-378387Y), 01 Aug 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Ramesh Chand (No. 14264859A now JC-378388F), 01 Aug 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Bijay Kumar Singh (No. 14251882P now JC-378391F), 08 Aug 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Raj Kumar (No. 14263687K now JC-378392K), 01 Aug 2008

Hav Sajjan Singh Kadam (No. 14252538W now JC-378393M), 06 Aug 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Radhanath Gorai (No. 14260510L now JC-378394P), 01 Aug 2008

Hav Dhani Ram Gogoi (No. 14265630N now JC-378395X), 01 Aug 2008

Hav Rishal Singh (No. 14251845F now JC-378396A), 01 Aug 2008

Hav Ram Kumar Singh (No. 14252032X now JC-378397H), 01 Aug 2008

Hav Suresh Pal Singh (No. 14252703W now JC-378398L), 01 Aug 2008

Hav PK Koner (No. 14253184L now JC-378399N), 01 Aug 2008

Hav Dhurav Singh Rawat (No. 14264066X now JC-378400X), 01 Aug 2008

Hav Vinod Kumar (No. 14264600K now JC-378401A), 01 Aug 2008

Hav K Chandro Pradhan (No. 14265923Y now JC-378402H), 01 Aug 2008

Hav Devendra Pal Singh (No. 14266567W now JC-378403L), 01 Aug 2008

Hav Munshi Ram (No. 14266860N now JC-378404N), 01 Aug 2008

Hav MD Galeeb (No. 14268238Y now JC-378405W), 01 Aug 2008

Hav Patil Bhima Rao Hari (No. 14269015N now JC-378406Y), 19 Aug 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Hanuman Singh (No. 14269235X now JC-378407F), 01 Aug 2008

Hav Shiv Nandan (No. 14279487K now JC-378408K), 01 Aug 2008

Hav Shyam Bahadur (No. 14269396A now JC-378409N), 01 Aug 2008

Hav B Rajendra Shivaji (No. 14269946X now JC-378410F), 01 Aug 2008

Hav Ramhet Singh Kushwah (No. 14269970N now JC-378411K), 01 Aug 2008

Hav Srinivas Dikshit (No. 14253405M now JC-378412M), 01 Aug 2008

Hav Shyam Bihari Singh (No. 14251578L now JC-378390Y), 13 Aug 2008

Hav Sachindra Nath Ray (No. 13885859P now JC-378455F), 13 Aug 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Krishna Kumar Sah (No. 14250968F now JC-378452N), 01 Sep 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Triluchon Borah (No. 14251315M now JC-378453W), 01 Sep 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Rati Pal Singh (No. 14255219P now JC-378454Y), 01 Sep 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Bharat Singh (No. 14247406Y now JC-378451L), 02 Sep 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Shiv Singh (No. 14255319A now JC-378456K), 01 Sep 2008

Hav Chandradhar Borah (No. 14258908F now JC-378457M), 01 Sep 2008

Hav Subramani K (No. 14265270H now JC-378458P), 01 Sep 2008

Hav P Sambhaji Krishna (No. 14266703F now JC-378459X), 01 Sep 2008

Hav Mohan Lal Basu (No. 14250945A now JC-378460M), 01 Sep 2008

Hav Virendra Nath Singh (No. 14259369H now JC-378461P), 01 Sep 2008

Hav Manohar Mahato (No. 14259807A now JC-378462X), 05 Sep 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Dinesh Kumar Singh (No. 14252842A now JC-378463A), 01 Sep 2008

Hav Manjinder Singh (No. 3382844F now JC-378464H), 01 Sep 2008

Hav Sube Singh Yadav (No. 14255279K now JC-378465L), 01 Sep 2008

Hav K Rajendiran (No. 14255442Y now JC-378466N), 01 Sep 2008

Hav Bhupinder Singh (No. 14255602N now JC-378467W), 01 Sep 2008

Hav Mool Chand (No. 14257402W now JC-378468Y), 01 Sep 2008

Hav Mal Singh (No. 14258098K now JC-378469F), 01 Sep 2008

Hav Manoj Kumar Jha (No. 14246929L now JC-378470W),
01 Sep 2008

Hav Tilak Raj (No. 14253090N now JC-378471Y), 01 Sep
2008

Hav Jagjit Singh (No. 3383187P now JC-378472F), 08 Sep
2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Surendra Singh (No. 14256664A now JC-378473K),
01 Sep 2008

Hav Makhan Dutta (No. 14262414P now JC-378474M),
01 Sep 2008

Hav Brijesh Singh (No. 14267615X now JC-378475P),
01 Sep 2008

Hav Jay Pal Singh (No. 14253322F now JC-378476X),
01 Sep 2008

Hav Arvind Kumar (No. 14247278M now JC-378477A),
01 Sep 2008

Hav Anada Krishnan (No. 14253467M now JC-378512X),
01 Oct 2008

Hav Ram Millan Badhai (No. 14254633F now JC-378513A),
01 Oct 2008

Hav Chandu Kuttan KG (No. 14268732P now JC-378514H),
12 Oct 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Banshi Dhar (No. 14263587Y now JC-378515L),
17 Oct 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008
without effect on pay and allowances)

Hav V Pratap Mishra (No. 14267427W now JC-378516N),
01 Oct 2008

Hav Rajendra Kumar Jena (No. 14269692L now JC-
378517W), 01 Oct 2008

Hav Vijay Shanker Tiwari (No. 14268085A now JC-
378518Y), 01 Oct 2008

Hav Jyotish Kumar Mahto (No. 14268672L now JC-
378519F), 01 Oct 2008

Hav Om Prakash Jat (No. 14268400L now JC-378520W),
09 Oct 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Kartaram Singh (No. 14268539H now JC-378521Y),
01 Oct 2008

Hav Murli Singh (No. 14268840Y now JC-378522F),
01 Oct 2008

Hav Baldev Singh Thakur (No. 14268814X now JC-
378523K), 01 Oct 2008

Hav S Siva Kumar (No. 14268795X now JC-378524M),
01 Oct 2008

Hav Sugathan S (No. 14264908X now JC-378525P),
01 Oct 2008

Hav Ashok Kumar Jena (No. 14267784X now JC-
378526Y), 01 Oct 2008

Hav Yatinder Kumar (No. 14269678Y now JC-378527A),
01 Oct 2008

Hav Rajendra Singh Rawat (No. 14269152M now JC-
378528H), 01 Oct 2008

Hav Ram Nath Ojha (No. 14269285H now JC-378529L),
01 Oct 2008

Hav Shankar Sindhe (No. 14269461P now JC-378530A),
01 Oct 2008

Hav VS Venkatadri Naidu (No. 14269643H now JC-
378531H), 01 Oct 2008

Hav Karnail Singh (No. 14269799A now JC-378532L),
01 Oct 2008

Hav Savant Shrikant Maha Deo (No. 14269801M now
JC-378533N), 01 Oct 2008

Hav Ram Kishan (No. 14269850P now JC-378534W),
01 Oct 2008

Hav Ajay Kumar Sahu (No. 15350132P now JC-378535Y),
01 Oct 2008

Hav SK Malayil (No. 15350386M now JC-378536F),
01 Oct 2008

Hav Vijai Bahadur Yadav (No. 14257141N now JC-
378537K), 01 Oct 2008

Hav Ashutosh Misra (No. 15350539L now JC-378538M),
01 Oct 2008

Hav Aditya Kumar Singh (No. 15350536X now JC-
378539P), 24 Oct 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Birender Singh (No. 15350695P now JC-378540K),
01 Oct 2008

Hav Aruna Kumar Nayak (No. 15350660Y now JC-
378541M), 01 Oct 2008

Hav Prem Chandra Tiwari (No. 14249807M now JC-
378543X), 01 Oct 2008

Hav Jagdish Prasad (No. 14262450A now JC-378544A),
01 Oct 2008

Hav LP Pandey (No. 15351252A now JC-378545H),
01 Oct 2008

- Hav Dhanurya Meher (No. 14265315X now JC-378546L),
01 Oct 2008
- Hav Bhagirath (No. 14268817L now JC-378547N), 01 Oct 2008
- Hav Patil Dattatrya B (No. 14269973F now JC-378548W),
01 Oct 2008
- Hav Brij Nandan Rai (No. 15351440F now JC-378549Y),
01 Oct 2008
- Hav Jeet Narayan Singh (No. 15351506M now JC-378550N), 01 Oct 2008
- Hav Suresh Chandra (No. 15351532N now JC-378551W),
01 Oct 2008
- Hav Rajpal Singh Kushwah (No. 14265657L now JC-378571K), 01 Nov 2008
- Hav Anil Kumar (No. 14268101M now JC-378572M),
01 Nov 2008
- Hav Bijoy Kumar Mandal (No. 14267002X now JC-378573P), 01 Nov 2008
- Hav Anil Kumar Singh (No. 15351910F now JC-378574X),
01 Nov 2008
- Hav Rakesh Kumar (No. 15351988M now JC-378575A),
01 Nov 2008
- Hav Prema Rajan PK (No. 15352947P now JC-378576H),
01 Nov 2008
- Hav Suresh Kumar A (No. 15352724X now JC-378577L),
01 Nov 2008
- Hav Guruvelli China Babu (No. 15350586H now JC-378578N), 01 Nov 2008
- Hav Arjun Singh (No. 15351303H now JC-378579W),
01 Nov 2008
- Hav Bipin Chandra (No. 15351409P now JC-378580L),
01 Nov 2008
- Hav Nasir Ahmed Khan (No. 15351447L now JC-378581N), 01 Nov 2008
- Hav Patil Mahadeo S (No. 15351557A now JC-378582W),
01 Nov 2008
- Hav MD A Subhan Laskar (No. 15352170K now JC-378583Y), 01 Nov 2008
- Hav Tarjinder Singh (No. 15352039M now JC-378584F),
01 Nov 2008
- Hav Ravi Chandran BM (No. 15352198K now JC-378585K), 01 Nov 2008
- Hav Bulbul Gogoi (No. 15352326W now JC-378586M),
01 Nov 2008
- Hav Lilu Ram (No. 15352417A now JC-378587P), 01 Nov 2008
- Hav Som Singh (No. 15352404H now JC-378588X),
01 Nov 2008
- Hav Harendra Singh (No. 15352457F now JC-378589A),
01 Nov 2008
- Hav Shyam Bihari Prasad (No. 14251889Y now JC-378590P), 01 Nov 2008
- Hav Vinod Shankar Mishra (No. 15351353N now JC-378542P), 28 Dec 2008
- (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)
- Hav Hemendra Singh (No. 14269227Y now JC-378602Y),
01 Dec 2008
- Hav Kanwar Pal (No. 14252604N now JC-378603F),
01 Dec 2008
- Hav Anish Kumar Pandey (No. 15351452W now JC-378604K), 01 Dec 2008
- Hav Vijendra Pal Singh (No. 14255109A now JC-378605M),
01 Dec 2008
- Hav Mool Chand Jat (No. 14268802H now JC-378606P),
01 Dec 2008
- Hav Rajesh Kumar (No. 14255268X now JC-378607X),
01 Dec 2008
- Hav Bhadra Kanta Bordoli (No. 14250003K now JC-378608A), 01 Dec 2008
- Hav Patil Mal Gonda Bal Gonda (No. 14268808K now JC-378609H), 01 Dec 2008
- Hav Ashok Kumar (No. 14254715X now JC-378610X),
01 Dec 2008
- Hav HM Usuf Abdul Kadar (No. 14266799P now JC-378611A), 01 Dec 2008
- Hav Narain Singh K (No. 14258080N now JC-378612H),
01 Dec 2008
- Hav Pansare Madhukar Bhagwan (No. 14262701Y now JC-378613L), 01 Dec 2008
- Hav Sarat Singh (No. 14261362X now JC-378614N),
01 Dec 2008
- Hav Pratap Singh (No. 15351959X now JC-378615W),
01 Dec 2008
- Hav RB Yadav (No. 14249161M now JC-378616Y),
01 Dec 2008
- Hav Joginder Singh (No. 15351380X now JC-378617F),
01 Dec 2008
- Hav Vijay Kumar (No. 14263508Y now JC-378618K),
01 Dec 2008
- Hav Mithlesh Kumar (No. 14263731H now JC-378619M),
01 Dec 2008

Hav Ramamoorthy R (No. 14267370M now JC-378620F),
01 Dec 2008

Hav Saju P (No. 14263668Y now JC-378621K), 01 Dec
2008

Hav SN Choudhary (No. 14267710K now JC-378622M),
01 Dec 2008

Hav Rajendra Prasad Singh (No. 15350100M now JC-
378623P), 01 Dec 2008

Hav S Kumar Tripathi (No. 15351355Y now JC-378624X),
01 Dec 2008

Hav Satyendra PD Singh (No. 15351400A now JC-
378625A), 01 Dec 2008

Hav Helvatkar Pravin B (No. 15351658N now JC-378626H),
10 Dec 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Sathyan Chalatan (No. 14258522F now JC-378627L),
01 Dec 2008

Hav Nityanand Singh (No. 14266372L now JC-378628N),
01 Dec 2008

Hav Shaji MJ (No. 15387260K now JC-378629W), 01 Dec
2008

Hav Rakesh Kumar Gupta (No. 14268428L now JC-
378630L), 01 Dec 2008

Hav Madan Kumar Sharma (No. 14254084M now JC-
378631N), 01 Dec 2008

Hav Manoj Kumar Yadav (No. 14262609A now JC-
378632W), 01 Dec 2008

Hav Chandravir Singh (No. 14267637W now JC-378633Y),
01 Dec 2008

Hav JK Pandey (No. 14258828K now JC-378711L), 01 Jan
2009

Hav SP Singh Chauhan (No. 14252520A now JC-378712N),
01 Jan 2009

Hav M Raj Kumar (No. 14266603W now JC-378713W),
01 Jan 2009

Hav DK Verma (No. 14254972F now JC-378714Y), 01 Jan
2009

Hav Debasis Sarkar (No. 14258458P now JC-378725L),
02 Jan 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2007
without effect on pay and allowances)

Hav Kurda Ram (No. 14250786N now JC-378726N),
02 Jan 2009

Hav Shri Ram (No. 14254145Y now JC-378728Y), 02 Jan
2009

Hav Padam Bahadur Thapa (No. 14249984M now JC-
378729F), 02 Jan 2009

Hav Bhuneswar Singh (No. 14253382W now JC-
378730W), 02 Jan 2009

Hav Chinglen Singha (No. 14253522X now JC-378731Y),
02 Jan 2009

Hav Ram Niwas (No. 14256120L now JC-378733K),
02 Jan 2009

Hav R Abdul Jameel (No. 14248564A now JC-378734M),
02 Jan 2009

Hav Noni Mohan Sharma (No. 1425000W now JC-
378735P), 02 Jan 2009

Hav Rattan Lal (No. 14262890N now JC-378736X), 02 Jan
2009

Hav M Ayoub Sofi (No. 14264974A now JC-378737A),
19 Jan 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jan 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Girdhar Singh (No. 14254717P now JC-378738H),
02 Jan 2009

Hav Naik Sanjay K (No. 14266473Y now JC-378755H),
01 Feb 2009

Hav Jaya Devan Edappat (No. 14251546H now JC-
378756L), 01 Feb 2009

Hav Jai Pal (No. 14255841H now JC-378757N), 01 Feb
2009

Hav AK Unnikrishnan (No. 15351332X now JC-378758W),
01 Feb 2009

Hav Mrinal Kumar Roy (No. 15351600W now JC-
378759Y), 16 Feb 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Rajinder Singh (No. 15352218M now JC-378760N),
01 Feb 2009

Hav Rajendra Singh (No. 15352247F now JC-378761W),
01 Feb 2009

Hav Sakarkar Dipak R (No. 15350578K now JC-378762Y),
01 Feb 2009

Hav Kishan Singh Mahara (No. 15351521F now JC-
378763F), 01 Feb 2009

Hav Suresh Kumar Kachhi (No. 14252330N now JC-
378764K), 01 Feb 2009

Hav Trilok Singh (No. 14268836W now JC-378765M),
01 Feb 2009

Hav Karri Kanaka Rao (No. 14269579W now JC-378766P),
01 Feb 2009

- Hav Ramalingeswara Rao S (No. 15350294M now JC-378767X), 01 Feb 2009
- Hav Milap Chand (No. 15352624M now JC-378768A), 01 Feb 2009
- Hav Emmanuel George (No. 14265811Y now JC-378769H), 01 Feb 2009
- Hav Shiv Kumar Singh (No. 14267116H now JC-378770X), 01 Feb 2009
- Hav Raj Kumar Singh Jadon (No. 14263993Y now JC-378771A), 01 Feb 2009
- Hav M Lourduraj (No. 14266606K now JC-378772H), 27 Feb 2009
- (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)
- Hav Mahipal Singh (No. 14265973K now JC-378773L), 01 Feb 2009
- Hav Kamta Prasad Singh (No. 14268421F now JC-378774N), 01 Feb 2009
- Hav Ravindra Singh (No. 14269359M now JC-378775W), 01 Feb 2009
- Hav Annepu Krishna Rao (No. 15351091H now JC-378796M), 01 Mar 2009
- Hav K Rajesh Kumar SRS (No. 15351549F now JC-378797P), 01 Mar 2009
- Hav Binod Kumar (No. 15351909M now JC-378798X), 01 Mar 2009
- Hav Ram Kumar Sharma (No. 15351965L now JC-378799A), 01 Mar 2009
- Hav Ravinder Kumar (No. 15352232Y now JC-378800K), 01 Mar 2009
- Hav Pratap Chandra Panda (No. 15352995P now JC-378801M), 01 Mar 2009
- Hav Joy John (No. 15352731N now JC-378802P), 01 Mar 2009
- Hav Dharmendra Bhardwaj (No. 14264040H now JC-378803X), 01 Mar 2009
- Hav Pathare Dadabhau C (No. 14266802K now JC-378804A), 01 Mar 2009
- Hav Bal Ram (No. 14267589F now JC-378805H), 01 Mar 2009
- Hav SK Upadhyay (No. 14268078K now JC-378806L), 01 Mar 2009
- Hav Rewa Ram Tiwari (No. 15350408A now JC-378807N), 01 Mar 2009
- Hav Basangouda V Patil (No. 15351326K now JC-378808W), 11 Mar 2009
- (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)
- Hav Joji KJ (No. 15352472W now JC-378809Y), 01 Mar 2009
- Hav Padma Kumaran Nair R (No. 14261850A now JC-378810N), 01 Mar 2009
- Hav Sunil Kumar Tudu (No. 14251818X now JC-378811W), 01 Mar 2009
- Hav Shiv Kumar (No. 14268815A now JC-378812Y), 01 Mar 2009
- Hav Jay Prakash (No. 15350355M now JC-378813F), 01 Mar 2009
- Hav Chandra Prackash (No. 15350301L now JC-378865X), 01 Apr 2009
- Hav Sukhwinder Singh (No. 14255083W now JC-378866A), 01 Apr 2009
- Hav Jitender Kumar (No. 15352141P now JC-378867H), 01 Apr 2009
- Hav Shiv Prasanna Rai (No. 15350140N now JC-378868L), 01 Apr 2009
- Hav Mukesh Kumar Singh (No. 15350326X now JC-378869N), 01 Apr 2009
- Hav Lakshman Prasad (No. 15351398N now JC-378870H), 03 Apr 2009
- (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)
- Hav Karappan TA (No. 15351328P now JC-378871L), 01 Apr 2009
- Hav Jadhav Shivaji B (No. 15351543A now JC-378872N), 01 Apr 2009
- Hav Pooran Singh (No. 14254162Y now JC-378873W), 01 Apr 2009
- Hav Shajimon B (No. 15350428N now JC-378874Y), 01 Apr 2009
- Hav Bhanwar Singh Rawat (No. 14250835L now JC-378875F), 01 Apr 2009
- Hav SR Krishna Reddy (No. 14269298A now JC-378876K), 01 Apr 2009
- Hav Rajpal Singh (No. 14251312Y now JC-378877M), 01 Apr 2009
- Hav Depti Lal (No. 14267459Y now JC-378878P), 01 Apr 2009
- Hav Puttan Lal (No. 14254371W now JC-378879X), 01 Apr 2009

Hav Baldev (No. 14261288F now JC-378880M), 01 Apr 2009

Hav Ardhendu Nandy (No. 14253264H now JC-378881P),
01 Apr 2009

Hav Sunil Kumar (No. 14255072K now JC-378882X), 01 Apr
2009

Hav Sukhdev Singh (No. 14258002W now JC-378883A),
01 Apr 2009

Hav Chandra Bhushan (No. 14258003Y now JC-378884H),
01 Apr 2009

Hav Sumer Singh (No. 14258267A now JC-378885L),
01 Apr 2009

Hav Bhupesh Chand (No. 14258177Y now JC-378886N),
01 Apr 2009

Hav Jai Nath Pandey (No. 14258362M now JC-378887W),
01 Apr 2009

Hav UK Kundu (No. 14258433H now JC-378888Y), 01 Apr
2009

Hav Asoke Kumar Singha (No. 14258431X now JC-
378889Y), 01 Apr 2009

Hav Tapan Kumar Pal (No. 14258435N now JC-378890W),
01 Apr 2009

Hav SS Sah (No. 14257907M now JC-378891Y), 01 Apr
2009

Hav NK Mishra (No. 14260759X now JC-378892F), 01 Apr
2009

Hav Raj Bihari (No. 14261319W now JC-378893K), 01 Apr
2009

Hav R Arunachalam (No. 14267126M now JC-378894M),
01 Apr 2009

Hav Nilkanth PD Sahu (No. 15351450L now JC-378895P),
01 Apr 2009

Hav Mohamimed Saddik (No. 15351441K now JC-378896X),
01 Apr 2009

Hav Rasam Singh (No. 15351917L now JC-378897A),
01 Apr 2009

Hav Siby Joseph (No. 15352735K now JC-378898H), 01 Apr
2009

Hav Rajesh Kumar (No. 15352520L now JC-378899L),
01 Apr 2009

Hav Om Prakash Rajak (No. 15350139Y now JC-378900P),
01 Apr 2009

Hav Chittaranjan Acharya (No. 15352372L now JC-
378901X), 01 Apr 2009

Hav V Eswara Reddy (No. 14258695Y now JC-378902A),
01 Apr 2009

Hav Chakra Pani Acharjya (No. 14258863M now JC-
378903H), 01 Apr 2009

Hav Dinesh Babu (No. 14258653M now JC-378904L),
01 Apr 2009

Hav Sanjiv (No. 14258175N now JC-378905N), 01 Apr 2009

Hav Muraleedharan P (No. 14259060M now JC-378906W),
01 Apr 2009

Hav Patil Vishnu DR (No. 15350899F now JC-378907Y),
01 Apr 2009

Hav Ravindra Nath Tiwari (No. 15351436Y now JC-
378908F), 16 Apr 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Braj Mohan Singh (No. 14254281P now JC-378909K),
01 Apr 2009

Hav Ran Vijay Kumar (No. 14252099W now JC-378910Y),
01 Apr 2009

Hav Mahabir (No. 14261603Y now JC-378911F), 01 Apr
2009

Hav Jadu Nath Sahoo (No. 14259516A now JC-378912K),
01 Apr 2009

Hav Sajimon T (No. 15351330M now JC-378913M), 02 Apr
2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Dhruba Thapa (No. 14265052K now JC-378914P),
01 Apr 2009

Hav Ashok Kumar (No. 14269560X now JC-378915X),
01 Apr 2009

Hav Rajeev Kumar Singh (No. 15353006N now JC-378926K),
01 May 2009

Hav P Muppudathi (No. 14267369X now JC-378927M),
01 May 2009

Hav Sugriv Singh (No. 14265104P now JC-378928P), 05 May
2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Sonavale Sonya Babu (No. 14263897K now JC-
378929X), 01 May 2009

Hav Rajesh Kumar (No. 14266169P now JC-378930M),
01 May 2009

Hav Santhosh Kumar EK (No. 15352958F now JC-378931P),
01 May 2009

Hav Varkey VJ (No. 15352975F now JC-378932X), 01 May
2009

Hav Sardar Singh (No. 15351535F now JC-378949L), 01 Jun 2009

Hav PD Bhariya (No. 14259019W now JC-378950A), 14 Jun 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Shidramappa Aramani (No. 14259271P now JC-378951H), 01 Jun 2009

Hav Pawan Kumar (No. 1425934H now JC-378952L), 01 Jun 2009

Hav Inder Bahadur Singh (No. 15351253H now JC-378954W), 01 Jun 2009

Hav Parmeshwar Singh (No. 15350968M now JC-378955Y), 01 Jun 2009

Hav Dhanendra Pradhan (No. 15351998W now JC-378956F), 01 Jun 2009

Hav Bhera Ram Jat (No. 14268399F now JC-378957K), 01 Jun 2009

Hav Vinod Kumar Singh (No. 14264650P now JC-378958M), 01 Jun 2009

Hav Divakaran V (No. 14268743F now JC-378959P), 01 Jun 2009

Hav Shankar Tiwari (No. 14257760F now JC-378960K), 01 Jun 2009

To be Nb Sub (Clk SD)

Hav Subhash Kumar (No. 15352236P now JC-378598F), 01 Dec 2008

Hav Vishnumurthy M (No. 15353017A now JC-378599K), 31 Dec 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Shyam Singh Bora (No. 15354412A now JC-378600N), 01 Dec 2008

Hav Triloki Nath Yadav (No. 15354442X now JC-378601W), 01 Dec 2008

Hav Subhash Chandra Pandey (No. 15354637H now JC-378710H), 01 Jan 2009

Hav Ram Bachan Yadav (No. 14263580P now JC-378720M), 02 Jan 2009

Hav Jagdish Prasad (No. 14267299K now JC-378721P), 02 Jan 2009

Hav Yashvir Singh (No. 15354538A now JC-378722X), 02 Jan 2009

Hav Ram Prasad (No. 15354515Y now JC-378723A), 02 Jan 2009

Hav Ram Mohan Tyagi (No. 15354929L now JC-378724H), 02 Jan 2009

Hav Kameshwar Ray (No. 14255556K now JC-378752P), 01 Feb 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Jaipal (No. 14268207Y now JC-378753X), 01 Feb 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Jitesh Chandra Kar (No. 15355090X now JC-379008K), 01 Feb 2008

Hav Korake Bhagawan U (No. 15355770X now JC-378754A), 01 Feb 2009

Hav Shamsher Singh (No. 15355377N now JC-378791N), 01 Mar 2009

Hav Khushi Ram (No. 15355443M now JC-378792W), 01 Mar 2009

Hav Dharmveer (No. 15355422W now JC-378793Y), 01 Mar 2009

Hav Rajendra Prasad Tewari (No. 15354755W now JC-378851X), 01 Apr 2009

Hav Dharmveer (No. 15354438P now JC-378852A), 01 Apr 2009

Hav Abhange SJ (No. 15354772W now JC-378853H), 01 Apr 2009

Hav Dalbir Singh (No. 14258669X now JC-378854L), 01 Apr 2009

Hav Basant Kumar Mishra (No. 14259113A now JC-378855N), 01 Apr 2009

Hav Sant Ram (No. 15355500H now JC-378856W), 02 Apr 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Hav A R Choudhuary (No. 15355628N now JC-378857Y), 01 Apr 2009

Hav Suresh Chandra (No. 15350049X now JC-378858F), 01 Apr 2009

Hav Bhookan Singh (No. 14267087Y now JC-378859K), 01 Apr 2009

Hav Satish Chandra (No. 15354701P now JC-378860Y), 01 Apr 2009

Hav Balbir Singh (No. 14254365H now JC-378861F), 01 Apr 2009

Hav Rajendra Singh (No. 14257538A now JC-378921L), 01 May 2009

To be Nb Sub (SKT)

Hav RK Singh Deo (No. 14258502N now JC-378922N),
01 May 2009

Hav Baldev Singh (No. 14261811F now JC-378923W),
01 May 2009

Hav Chandra Kumar Dutta (No. 14262446X now JC-378924Y), 01 May 2009

Hav Rajbir Singh (No. 15354696P now JC-378925F), 01 May 2009

Hav K Bhaskar Reddy (No. 15356177L now JC-378943K),
06 Jun 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009
without effect on pay and allowances)

Hav S Ahmed Barbhuiya (No. 15355950A now JC-378944M), 01 Jun 2009

Hav Ashok Kumar (No. 15356066N now JC-378945P),
01 Jun 2009

Hav Neelam Srinivasa Rao (No. 15356163L now JC-378946X), 01 Jun 2009

Hav Unnikrishanan B (No. 15357131P now JC-378947A),
01 Jun 2009

Hav Dileep Kumar S (No. 15357133A now JC-378948H),
01 Jun 2009

Hav Santosh Kumar G (No. 15357134H now JC-378969Y),
01 Jul 2009

Hav N Bojaraj (No. 15358746M now JC-378970N), 01 Jul 2009

Hav V Rangasiva Arul N (No. 15358793K now JC-378971W),
01 Jul 2009

Hav Devikar Sudhakar S (No. 15359047N now JC-378972Y),
01 Jul 2009

Hav PS Thangamuthu (No. 15359050N now JC-378973F),
01 Jul 2009

Hav G Ravi (No. 15359059H now JC-379059X), 01 Aug 2009

Hav Jeewan Singh (No. 15359118K now JC-379060M),
01 Aug 2009

• Hav Pawan Kumar Sadotra (No. 15359124X now JC-379061P), 01 Aug 2009

Hav Gauri Shankar Sharma (No. 15359102Y now JC-379062X), 01 Aug 2009

Hav Shaik Imamsha (No. 15356164N now JC-379079L),
02 Aug 2009

Hav Brij Bihari Singh (No. 15358577W now JC-379080A),
02 Aug 2009

Hav Susanta Kumar Das (No. 15359190A now JC-379117W),
02 Aug 2009

Hav Rama Nand (No. 14260316W now JC-377448Y), 01 Aug 2007

Hav Sahukara Suryarao (No. 14261447N now JC-378816P),
01 Nov 2007

Hav Balbir Singh (No. 14262006K now JC-377731M),
04 Jan 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007
without effect on pay and allowances)

Hav Gopa Kumar C (No. 14260351Y now JC-377830P),
01 Feb 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Krishan Pal Singh (No. 14251253X now JC-377831X),
01 Jan 2008

Hav S Chandra (No. 14261650K now JC-377832A), 01 Jan 2008

Hav Dharamvir Singh (No. 14262002N now JC-377934W),
01 Feb 2008

Hav Hawa Singh (No. 14262003W now JC-377935Y),
01 Feb 2008

Hav Dhanna Ram Gahlot (No. 14261769N now JC-377936F),
01 Feb 2008

Hav Girdhari Lal Chahar (No. 14262004Y now JC-378002W),
01 Mar 2008

Hav Jai Singh (No. 14261935W now JC-378087X), 01 Apr 2008

Hav Ramesh (No. 14262036F now JC-378088A), 01 Apr 2008

Hav Ranvir Singh (No. 14261791Y now JC-378160L),
01 May 2008

Hav Jagdish Singh (No. 14261793K now JC-378161N),
01 May 2008

Hav Babu Hasan (No. 14261605X now JC-378312F), 02 May 2008

Hav Krishan Kumar (No. 14261792F now JC-378313K),
02 May 2008

Hav Suresh Kumar (No. 14261901H now JC-378236A),
23 Jun 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 May 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Satyavan Singh (No. 14262042P now JC-378249X),
01 Jun 2008

Hav Arabinda Majumdar (No. 14262121K now JC-378250M), 01 Jun 2008

Hav S K Haldar (No. 14262122M now JC-378251P), 01 Jun 2008

Hav S K Pal (No. 14262124X now JC-378252X), 01 June 2008

Hav Sandip Tiwari (No. 14262126H now JC-378324W), 18 Jul 2008

(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Devadas M (No. 14262129W now JC-378385N), 07 Aug 2008

(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Pawan Kumar (No. 14261964L now JC-378386W), 01 Aug 2008

Hav Ram Krishan (No. 14261920N now JC-378509X), 01 Oct 2008

Hav Karmjit Singh (No. 14261970Y now JC-378510M), 01 Oct 2008

Hav Chaman Lal (No. 14262516L now JC-378511P), 01 Oct 2008

Hav Om Prakash (No. 14262095N now JC-378568K), 01 Nov 2008

Hav Uma Shankar (No. 14262307N now JC-378569M), 01 Nov 2008

Hav Abdul Kalam (No. 14262309Y now JC-378570F), 01 Nov 2008

Hav Satyavan Singh (No. 14262038M now JC-378638X), 01 Dec 2008

Hav Satpal Sharma (No. 14261918W now JC-378639A), 22 Dec 2008

(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Saudan Singh (No. 14262485W now JC-378794F), 01 Mar 2009

Hav Bani Singh (No. 14262484N now JC-378795K), 01 Mar 2009

Hav Omvir Singh (No. 14262715Y now JC-378862K), 01 Apr 2009

Hav Nawal Kishor (No. 14262569K now JC-378863M), 01 Apr 2009

Hav Dayanand (No. 14262690X now JC-378864P), 01 Apr 2009

Hav Shyam Lal (No. 14263077X now JC-378974X), 02 Jul 2009

A. V. BAGUR
Under Secy

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 148, dated 4th Mar 2010—The President is pleased to make the following Appointments/Promotions:—

Hav to be Nb Sub Armr

Parvinder Singh (No. 14567388F now JC-763551M), 26 Mar 2009/08 Mar 2009*

Shailendra Kumar Singh (No. 14566655L now JC-763549P), 03 Apr 2009/08 Mar 2009*

S R Pandurang (No. 14562422M now JC-763487A), 03 Mar 2009/08 Feb 2009*

Suresh Chandra (No. 14567472F now JC-763550K), 13 Mar 2009/08 Mar 2009*

Hav to be Nb Sub Dvr (MT)

Amar Singh Yadav (No. 14582841L now JC-763514Y), 01 Apr 2009

Girish Chandra Mandal (No. 14582966H now JC-763498M), 04 Apr 2009/01 Apr 2009*

Hans Ram Gurjar (No. 14582656X now JC-763511L), 01 Apr 2009

Kushlanand Badoni (No. 14574807W now JC-763501F), 01 Apr 2009

Man Singh (No. 14582458M now JC-763506A), 07 Apr 2009/01 Apr 2009*

Pratap Singh Krishnia (No. 14582549W now JC-763509N), 01 Apr 2009

Ram Sumer Singh (No. 14582188H now JC-763503M), 01 Apr 2009

Rana Pratap Bhadra (No. 14567849A now JC-763317W), 09 Jan 2009/07 Dec 2008*

Sheo Shankar Yadav (No. 14582199P now JC-763504P), 01 Apr 2009

Uday Kumar Pandey (No. 14577443A now JC-763502K), 01 Apr 2009

Hav to be Nb Sub Rec Mech

Baley Ram (No. 14557619Y now JC-763432W), 09 Feb 2009/04 Jan 2009*

Hav to be Nb Sub Tech Armr

Purna Chandra Patra (No. 14615664Y now JC-763528Y), 22 Apr 2009/01 Feb 2009*

Hav to be Nb Sub Tech A-Veh

Bhupal Singh (No. 14609072Y now JC-763575W), 23 Mar 2009/01 Mar 2009*

Binod Kumar (No. 14620722F now JC-763584Y), 17 Mar 2009/01 Mar 2009*

Biswa Jit Das (No. 14618528N now JC-763579M), 06 Apr 2009/01 Mar 2009*

Leeladhar Geed (No. 14617898F now JC-763578K), 30 Apr 2009/01 Mar 2009*

Prithish Debnath (No. 14620499H now JC-763582M), 01 Apr 2009/01 Mar 2009*

Rakesh Kumar Singh (No. 14620678H now JC-763583P), 30 Mar 2009/01 Mar 2009*

Satya Narayan Patra (No. 14619498N now JC-763580F), 08 Apr 2009/01 Mar 2009*

V Krishna Kumar (No. 14620488W now JC-763581K), 27 Mar 2009/01 Mar 2009*

V Sundara Rajan (No. 14613908H now JC-763576Y), 26 Mar 2009/01 Mar 2009*

Waikar Baliram Jijaram (No. 14618054X now JC-763543N), 23 Mar 2009/01 Feb 2009*

Hav to be Nb Sub Tech B-Veh

Basanta Kumar Mandal (No. 14601747Y now JC-763558W), 28 Mar 2009/09 Nov 2008*

Birendra Kumar Singh (No. 14610179A now JC-763566P), 27 Mar 2009/01 Mar 2009*

Birjendra Bahadur Singh (No. 14610417F now JC-763569H), 26 Mar 2009/01 Mar 2009*

Dinker Karankal (No. 14609345W now JC-763562Y), 26 Mar 2009/01 Mar 2009*

Gurmail Chand (No. 14610826P now JC-763572H), 06 Apr 2009/01 Mar 2009*

Harashit Sarkar (No. 14610097X now JC-763564K), 01 Apr 2009/01 Mar 2009*

K Sanjeev (No. 14609005N now JC-763559Y), 16 Mar 2009/01 Mar 2009*

K Vaithilingam (No. 14611270H now JC-763574N), 30 Mar 2009/01 Mar 2009*

Kanda Samy A (No. 14610291M now JC-763567X), 02 Apr 2009/01 Mar 2009*

Kashmir Singh (No. 14610264H now JC-763565M), 30 Mar 2009/01 Mar 2009*

Krishna Kumar Singh (No. 14610353F now JC-763568A), 20 Mar 2009/01 Mar 2009*

M Janarthanan Pillai (No. 14597361Y now JC-763557N), 25 Mar 2009/01 Feb 2009*

Nalband Ansar (No. 14609400F now JC-763563F), 21 Mar 2009/01 Mar 2009*

Pooran Lal Khatarker (No. 14612247F now JC-763556L), 21 Mar 2009/01 Feb 2009*

Radheshyam Prasad (No. 14610864L now JC-763573L), 01 Apr 2009/01 Mar 2009*

Ranbir Singh (No. 14609116L now JC-763560N), 30 Mar 2009/01 Mar 2009*

Ruddar Raju V Ramana (No. 14609726X now JC-763561W), 23 Mar 2009/01 Mar 2009*

Sivapuram Venketeswarlu (No. 14610722N now JC-763570X), 28 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav to be Nb Sub Tech Cmptr

Indra Mani Prasad Napit (No. 14603908P now JC-763516K), 07 Mar 2009/01 Feb 2009*

Upendra Prasad (No. 14602069W now JC-763515F), 25 Mar 2009/01 Feb 2009*

Hav to be Nb Sub Tech Elect

Hom Prakash Gang Ber (No. 14596817A now JC-763181X), 28 Apr 2009/05 Oct 2008*

Narasimma Raj S (No. 14621554A now JC-763555H), 01 Apr 2009

Om Prakash Yadav (No. 14620981K now JC-763391X), 01 Apr 2009

Tapan Kumar Majumdar (No. 14620815W now JC-763553X), 04 Apr 2009/01 Apr 2009*

Hav to be Nb Sub Tech Gun

Lokesha (No. 14618323Y now JC-763525L), 23 Mar 2009/07 Dec 2008*

Prem Singh (No. 14618408P now JC-763522X), 18 Mar 2009/07 Dec 2008*

Hav to be Nb Sub Tech Inst

Mahendra Kumar (No. 14618447N now JC-763531Y), 18 Mar 2009/08 Feb 2009*

Umesh Kumar Sharma (No. 14619742H now JC-763536X), 18 Apr 2009/08 Feb 2009*

Hav to be Nb Sub Tech Radio

Govindvalabh Bagoli (No. 14618914A now JC-762846W), 16 Apr 2009/01 Sep 2008*

Hav to be Nb Sub Armr

Anwar Singh (No. 14561204F now JC-763484M), 12 Mar 2009/08 Feb 2009*

Ashutosh Kumar Singh (No. 14559651M now JC-763475L), 13 Mar 2009/08 Feb 2009*

Bidya Nand Thakur (No. 14564921A now JC-763489L), 24 Mar 2009/08 Feb 2009*

Indukant Mishra (No. 14567422W now JC-763552P), 14 Mar 2009/08 Mar 2009*

Tirashpal Singh (No. 14616851K now JC-763482F), 13 Mar 2009/08 Feb 2009*

Hav to be Nb Sub Dvr (MT)

Hav Basudev Pradhan (No. 14582532H now JC-763508L),
01 Apr 2009

Hav M Vishyanathan (No. 14581769N now JC-763499P),
01 Apr 2009

Hav Mahinder Singh (No. 14580809X now JC-763494W),
21 Mar 2009/01 Nov 2008*

Hav Nair Vijay Kumar Rajappan (No. 14582762W now JC-763513W), 01 Apr 2009

Hav Nand Ram Kumar (No. 14582011P now JC-763497K),
12 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Puran Singh (No. 14582310N now JC-763505X),
01 Apr 2009

Hav Ramkanishk Yadav (No. 14582476P now JC-763507H),
01 Apr 2009

Hav Surender Singh (No. 14582169X now JC-763500Y),
01 Apr 2009

Hav Thakur Prasad (No. 14581325K now JC-763496F),
09 Mar 2009/08 Feb 2009*

Hav to be Nb Sub FTR (FD)

Hav Arun Kumar Yadav (No. 14560228Y now JC-763492L),
23 Mar 2009/01 Feb 2009*

Hav to be Nb Sub TCM (L)

Hav Sheeshpal (No. 14571400P now JC-763548M),
22 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav to be Nb Sub TCM (RO)

Hav Bhawani Singh Rathore (No. 14565754F now JC-763479F), 18 Mar 2009/08 Feb 2009*

Hav to be Nb Sub Tech (SA)

Hav Prasad P R (No. 14612956W now JC-763527W),
26 Mar 2009/07 Dec 2008*

Hav Shivaji H R (No. 14615706A now JC-763529F),
24 Mar 2009/01 Feb 2009*

Hav to be Nb Sub Tech A-Veh

Hav Harsh Narain (No. 14620542Y now JC-763545Y),
21 Mar 2009/01 Feb 2009*

Hav Prasanta Kumar Parida (No. 14620665L now JC-763546F), 20 Mar 2009/01 Feb 2009*

Hav Satya Pal Singh (No. 14619297P now JC-763544W),
30 Mar 2009/01 Feb 2009*

Hav Solanke Vinod Shesh Rao (No. 14617284Y now JC-763577F), 26 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav to be Nb Sub Tech B-Veh

Hav Kishore Chandra Sahu (No. 14606522A now JC-763540A), 24 Mar 2009/04 Jan 2009*

Hav Avadhesh Kumar Mishra (No. 14608236X now JC-763541H), 07 Apr 2009/04 Jan 2009*

Hav Gorakh Nath Patel (No. 14605787X now JC-763539L),
24 Mar 2009/04 Jan 2009*

Hav Hiralal Patel (No. 14604086 P now JC-763547K),
09 Apr 2009/09 Nov 2008*

Hav Surender Singh (No. 14608890N now JC-763542L),
03 Feb 2009/04 Jan 2009*

Hav to be Nb Sub Tech Cmptr

Hav Nital Chandra Ghosh (No. 14615681Y now JC-763519X), 10 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Jagbeer Singh Kushwaha (No. 14618264X now JC-763520M), 23 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Kripashankar Vishwakarma (No. 14604470W now JC-763517M), 24 Mar 2009/01 Feb 2009*

Hav R Tamizhcheivam (No. 14609893N now JC-763518P),
21 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav to be Nb Sub Tech Gun

Hav Narendra Kumar (No. 14618402N now JC-763521P),
17 Mar 2009/07 Dec 2009*

Hav to be Nb Sub Tech Inst

Hav Keshendra Yadav (No. 14618622X now JC-763532F),
16 Mar 2009/08 Feb 2009*

Hav Rajendra Singh (No. 14620269P now JC-763537A),
16 Mar 2009/08 Feb 2009*

Hav Sandeep Kumar Rai (No. 14618430A now JC-763530W), 14 Mar 2009/08 Feb 2009*

Hav Sanjay Kumar Silaych (No. 14618791Y now JC-763534M), 20 Mar 2009/08 Feb 2009*

Hav Santosh Kumar Yadav (No. 14619617Y now JC-763535P), 14 Mar 2009/08 Feb 2009*

Hav Vinod Kumar (No. 14620849K now JC-763538H),
16 Mar 2009/08 Feb 2009*

Hav to be Nb Sub Tech Radio

Hav Vir Bahadur Singh (No. 14617371M now JC-763526N), 23 Mar 2009/01 Oct 2008*

Hav to be Nb Sub VM (AFV)

Hav Anup Kumar (No. 14562734H now JC-763480W),
20 Mar 2009/08 Feb 2009*

Hav to be Nb Sub Clk (GD)

Hav Annam Venkata Ramajaneyulu (No. 14579910L now JC-763621A), 18 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Ashok Kumar (No. 14580045K now JC-763631K),
18 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Braj Kishore Sinha (No. 14578167P now JC-763601M), 17 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Chander Bhan (No. 14579980K now JC-763630F), 19 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Darshan Lal (No. 14579725X now JC-763617X), 23 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Ghanshyam Dangee (No. 14579895F now JC-763625W), 19 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Gopalakrishnan S (No. 14578209W now JC-763602P), 17 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Gurdev Singh Dadwal (No. 14580057Y now JC-763632M), 20 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Harkaran Singh (No. 14579875N now JC-763623L), 23 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Jagmal Singh (No. 14578525P now JC-763603X), 17 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Jhon Thapa (No. 14579614A now JC-763615M), 21 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Jogendra Kumar Tiwari (No. 14578921L now JC-763607N), 18 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav M Palani (No. 14580009Y now JC-763629M), 18 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Md Nasib Ali (No. 14579609P now JC-763614K), 25 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Moti Lal (No. 14578130N now JC-763600K), 10 Apr 2009/01 Mar 2009*

Hav Navin Singh Mahara (No. 14579968H now JC-763628K), 18 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Nikhil Biswas (No. 14579603N now JC-763612Y), 18 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Nitai Chandra Banerjee (No. 14578919N now JC-763605H), 06 Apr 2009/01 Mar 2009*

Hav Patel Hasmukh Bhai J B (No. 14578978A now JC-763609Y), 27 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Pradip Kumar Jha (No. 14579336X now JC-763611W), 18 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Pramod Kumar Pasayat (No. 14579333K now JC-763608W), 21 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Rajesh Kumar (No. 14578808W now JC-763604A), 23 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Rajesh Kumar Rai (No. 14578920H now JC-763606L), 18 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Saji J S Gnanadas (No. 14579642M now JC-763616P), 23 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Satish Chandra Saini (No. 14579885X now JC-763624N), 18 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Sukhdev Singh (No. 14579666W now JC-763620X), 19 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Suresh Babu (No. 14579974W now JC-763626Y), 20 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Suresh Kumar (No. 14579750W now JC-763619H), 30 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Surjit Singh (No. 14579749F now JC-763618A), 19 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Swapan Kumar Mandal (No. 14579604W now JC-763613F), 17 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Tribhovan Nanji Parmar (No. 14578981A now JC-763610N), 19 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Veer Bahadur Singh (No. 14580774M now JC-763633P), 25 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Vijay Singh (No. 14579912W now JC-763622H), 20 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Yadav Rakeshbabu Vidyaram (No. 14580011W now JC-763627F), 18 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav to be Nb Sub SKT

Hav Anil Kumar Vidyarthi (No. 14600142L now JC-763593Y), 05 Apr 2009/01 Mar 2009*

Hav Bakul Sarkar (No. 14600378A now JC-763587L), 27 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav G Kathiravan (No. 14600722A now JC-763588N), 18 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav G Mahalingam (No. 14600857F now JC-763590L), 30 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Jayavel T (No. 14600864X now JC-763592W), 23 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav L Muthuramalingam (No. 14600859M now JC-763591N), 20 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Narendra Singh (No. 14601031A now JC-763599A), 01 Apr 2009

Hav Natarajan PG (No. 14600856Y now JC-763589W), 23 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Om Prakash (No. 14600990K now JC-763596M), 25 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Pradip Kumar Roy (No. 14600376P now JC-763585A), 23 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav R Deivendran (No. 14600871N now JC-763594F), 23 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Ramesh Chand (No. 14600993X now JC-763597P), 17 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Santosh Kumar Adhikary (No. 14600377X now JC-763586H), 26 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Subramani K (No. 14600872W now JC-763595K), 19 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav Vinod Kumar Upadhyay (No. 14601007K now JC-763598X), 23 Mar 2009/01 Mar 2009*

Hav to be Nb Sub VM (AFV)

Hav Sushanta Kumar Das (No. 14563993X now JC-763491H), 19 Mar 2009/01 Mar 2009*

*(Gtd ante dated seniority)

N K KASHMIRA
Under Secy

AIR BRANCH

No. 149, dated 5th March 2010—The President is pleased to make the following substantive promotions :—

INDIAN AIR FORCE

AE BRANCH

To be Subs Air Vice Marshal

AVM PK Srivastava (14160), AE(L), 08 Jun 2009

AVM VK Narang (14326), AE(L), 01 Jul 2009

A K SINGH
Dy Dir Personnel Officers-PO2(B)

ARMY BRANCH

No. 150, dated 5th March 2010—The President is pleased to permit the undermentioned officers relinquish their Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 05 Dec 2008 and to grant them Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

To be Capt

Girija Nandan Tripathy (MS-15014X) (MR-08782W), AMC, 12 Apr 2005

(MoD notification published in Gazette of India dated 02 Sep 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Sween Sheoran (MS-15011K) (MR-08892L), AMC, 12 Apr 2005

(MoD notification published in Gazette of India dated 17 Jun 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

To be Lt

Amit Kishore (MS-14738H) (MR-08891H), AMC, 27 Feb 2004

(MoD notification published in Gazette of India dated 30 Apr 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

YASH PANDE
Brig
Dy DGAFMS (HR)

FINANCE DIVISION

No. 151, dated 5th March 2010—The President is pleased to retire Shri Shingara Singh, Director, Ministry of Defence (Finance) from Government Service with effect from 30.11.2009 (AN) on attaining the age of superannuation.

R C MEENA
Asstt Financial Adviser (E)

CORRIGENDUM

No. 152, dated 8th March 2010—In the Govt of India, Ministry of Defence Gazette Notification published on 17.10.2009 for granting honorary rank to Ex-ANO, the following amendment at Sr. No. 9 is made :—

For

Sl. No.	NCC No., Rank, Name and Dte	Honorary Rank awarded	Date from which awarded
9.	NCCJ/61721 Chief Officer P Gangadhar NCC Dte Orissa	Major	31.03.2007

Read

Sl. No.	NCC No., Rank, Name and Dte	Honorary Rank awarded	Date from which awarded
9.	NCCJ/61721 Chief Officer P Gangadhar NCC Dte Orissa	Lieutenant	31.03.2007

S J DAVID
Col
Offg Dy Dir Gen (MS)